



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18—अगस्त 24, 2007 (श्रावण 27, 1929)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18—AUGUST 24, 2007 (SRAVANA 27, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2007

सं. 410, दिनांक 25 जुलाई 2007—राष्ट्रपति, श्री शूरवीर सिंह पायल, को 25 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-10,500/-रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग के श्री सीताराम, सहायक को 10 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर 2007 तक की अवधि अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित के अध्वधीन नियुक्त करते हैं:—

(1) तदर्थ पदोन्नति से पदोन्नत व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और

(2) तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में विहित भर्ती के सामान्य माध्यमों से नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग के श्री रूप लाल, सहायक को 10 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर 2007 तक की अवधि अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित के अध्वधीन नियुक्त करते हैं:—

(1) तदर्थ पदोन्नति से पदोन्नत व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और

(2) तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में विहित भर्ती के सामान्य माध्यमों से नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

एस.के. देब
अवर सचिव

थल सेना विभाग/एमजीओ/ईएमई कार्मिक

संख्या 411, दिनांक 27 जुलाई 2007--

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नाम, पदोन्नति की तारीख

फनिन्द्रा भूषण मिश्रा (जेसी-760136ए), 26 नवम्बर 2005

हेमन्त कुमार तिवारी (जेसी-760137ए), 26 नवम्बर 2005

हासिला प्रसाद मिश्रा (जेसी-760138एल), 26 नवम्बर 2005

अजय प्रकाश मिश्रा (जेसी-760139एन), 26 नवम्बर 2005

प्रद्युमन उपाध्याय (जेसी-760140ए), 26 नवम्बर 2005

एन.के. कश्मीरा
अवर सचिव

सेना शाखा

संख्या 412 दिनांक 30 जुलाई 2007--राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 02 मार्च 2007 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 02 मार्च 2007 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आई सी सं., आर्म/सर्विस

प्रेम सिंह बिष्ट (एसएस-39529), (आई सी-65533डब्ल्यू), आर्टी

पंकज मैथानी (एसएस-39530), (आई सी-65534वाई), मैक इन्फैन्ट्री

अश्वनी कुमार (एसएस-39531), (आई सी-65535एफ), आर्टी

प्रशांत जोतिबा माने (एसएस-39532), (आई सी-65536के), एसी

अमित मेहता (एसएस-39533), (आई सी-65537एम), इन्फैन्ट्री

जोरावर सिंह (एसएस-39534), (आई सी-65538पी), इन्फैन्ट्री

सुरेश कुमार पंडित (एसएस-39538), (आई सी-65539एक्स),
इंजीनियर्स

लॉगजम जिमकैली मीतेई (एसएस-39539), (आई सी-65540एम),
इन्फैन्ट्री

संदीप के थापा (एसएस-39540), (आई सी-65541पी), ईएमई

आदित्य बली (एसएस-39541), (आई सी-65542एक्स), इन्फैन्ट्री

फर्नांडीस जोहनी रोकी (एसएस-39542), (आई सी-65543ए), इंटर

दीपक वी शर्मा (एसएस-39546), (आई सी-65544एच), ए ओ सी

अंजित कुमार राजगुरु मिश्रा (एसएस-39549), (आई
सी-65545एल), इन्फैन्ट्री

कौशिक तरुण महेश (एसएस-39550), (आई सी-65546एन), एसी

अरूण देव सिंह जसरोटिया (एसएस-39551), (आई सी-65547डब्ल्यू),
इन्फैन्ट्री

रमित चौहान (एसएस-39552), (आई सी-65548वाई), सिग्नल्स

प्रताप रंजन मोहंती (एसएस-39554), (आई सी-65549एफ), इन्फैन्ट्री

मिर्दुल मिश्रा (एसएस-39556), (आई सी-65550डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

मनजीत सांगवान (एसएस-39557), (आई सी-65551वाई), एसएससी

विशाल सिंह संगा (एसएस-39558), (आई सी-65552एफ), मैक
इन्फैन्ट्री

अक्षय कुमार (एसएस-39560), (आई सी-65553के), आर्टी

आदित्य सिंह राठौर (एसएस-39562), (आई सी-65555पी), एसी

शिविंदर प्रताप सिंह कंवर (एसएस-39563), (आई सी-65556एक्स),
इन्फैन्ट्री

आर्थर अगय फोनिंग (एसएस-39564), (आई सी-65557ए), इन्फैन्ट्री

आनंद (एसएस-39565), (आई सी-65558एच), ईएमई

भानु प्रताप सिंह (एसएस-39567), (आई सी-65559एल), एओसी

प्रेम कुमार तोमर (एसएस-39568), (आई सी-65560ए), सिग्नल्स

ब्रिजेंद्रा सिंह बी शेखावत (एसएस-39570), (आई सी-65561एच),
एसी

सुगंधित विकास बली (एसएस-39572), (आई सी-65562एल),
इंजीनियर्स

शेरप दोरजी भुतिया (एसएस-39573), (आई सी-65563एन), इन्फैन्ट्री

अमरिंदर ब्रार (एसएस-39578), (आई सी-65565वाई), एसी

पर्था प्रतीम दत्ता (एसएस-39579), (आई सी-65566एफ), इंजीनियर्स

विवेक चौधरी (एसएस-39581), (आई सी-65567के), आर्टी

जाधव संतोष कुमार रंग राव (एसएस-39582), (आई सी-65568एम),
इन्फैन्ट्री

जाधव महेश वैष्णु (एसएस-39583), (आई सी-65569पी), एसी

करण वशिष्ठ (एसएस-39584), (आई सी-65570के), इन्फैन्ट्री

रोहित चौहान (एसएस-39585), (आई सी-65571एम), इन्फैन्ट्री

अरिंदम बर्धन (एसएस-39586), (आई सी-65572पी), इन्फैन्ट्री

सिद्धराय पाटिल (एसएस-39587), (आई सी-65573एक्स), इंजीनियर्स

सुनील कुमार (एसएस-39588), (आई सी-65574ए), मैक/इन्फैन्ट्री

विरमानी मनु चंद्रमोहन (एसएस-39591), (आई सी-65577एन),
इन्फैन्ट्री

हेमंत लोहान (एसएस-39592), (आई सी-65578डब्ल्यू), आर्टी

राजीव रंजन ठुकर (एसएस-39595), (आई सी-65579वाई), सिग्नल्स

एम बाबू (एसएस-39597), (आई सी-65580एन), इन्फैन्ट्री
कृष्ण कुमार चरन (एसएस-39599), (आई सी-65581डब्ल्यू), आर्टी
इम्तियाज मंसूरी (एसएस-39601), (आई सी-65583एफ), एएडी
दिनेश सिंह भंडारी (एसएस-39602), (आई सी-65584के), ईएमई
सचिन शर्मा (एसएस-39603), (आई सी-65585एम), एओसी
अमर दीप यादव (एसएस-39604), (आई सी-65586पी),
मैक/इन्फैन्ट्री

विकास खन्ना (एसएस-39609), (आई सी-65588ए), आर्टी
दिग विजय सिंह शेखावत (एसएस-39611), (आई सी-65589एच),
ईएमई

मिश्रा राहुल बल (एसएस-39612), (आई सी-65590एक्स), इन्फैन्ट्री
बिजू कृष्णन (एसएस-39613), (आई सी-65591ए), आर्टी
रमनदीप संधू (एसएस-39614), (आई सी-65592एच), एसी
विकास रामचंद्रा पाटिल (घरे) (एसएस-39617), (आई
सी-65593एल), सिग्नल्स

पवन कुमार डनियाल (एसएस-39619), (आई सी-65594एन),
इन्फैन्ट्री

सुखवंत सिंह ढींढसा (एसएस-39620), (आई सी-65595डब्ल्यू),
इन्फैन्ट्री

रोहित सोलंकी (एसएस-39621), (आई सी-65596वाई), इन्फैन्ट्री
बिरेन्द्र कुमार पुष्कर (एसएस-39623), (आई सी-65597एफ), आर्टी
विक्रम सिंह बोरा (एसएस-39627), (आई सी-65598के), इन्फैन्ट्री
एम डी अनवरुद्दीन शेरीफ (एसएस-39628), (आई सी-65599एम),
इन्फैन्ट्री

बादल कौशिक (एसएस-39629), (आई सी-65600डब्ल्यू), एएडी
एम वी विपिन (एसएस-39631), (आई सी-65601वाई), एससी
महेंद्र कुमार जोशी (एसएस-39634), (आई सी-65603के), एससी
बिष्ट अभय भुवन चंद्रा (एसएस-39636), (आई सी-65604एम),
एओसी

नीरज कुमार (एसएस-39637), (आई सी-65605पी), इन्फैन्ट्री
राजीव मेनन (एसएस-39640), (आई सी-65606एक्स), इन्फैन्ट्री
दीपू के (एसएस-39641), (आई सी-65607ए), इन्फैन्ट्री
शिव कुमार (एसएस-39642), (आई सी-65608एच), ईएमई
सौरभ रावत (एसएस-39643), (आई सी-65609एल), इन्फैन्ट्री
अजय कुमार (एसएस-39645), (आई सी-65610ए), इन्फैन्ट्री

थोंगबम दिजेन सिंह (एसएस-39652), (आई सी-65614डब्ल्यू),
इन्फैन्ट्री

विक्रांत मनकोटिया (एसएस-39658), (आई सी-65617के), ईएमई
रमेश कुमार (एसएस-39661), (आई सी-65618एम), इन्फैन्ट्री
पैशाल मनोचा (एसएस-39664), (आई सी-65619पी), इन्फैन्ट्री
प्रशांत झाला (एसएस-39667), (आई सी-65621एम), इन्फैन्ट्री
आशिफ अब्बास (एसएस-39668), (आई सी-65622पी), इन्फैन्ट्री
मृतंद मिश्रा (एसएस-39669), (आई सी-65623एक्स), आर्टी
दिनेश सिंह ठाकुर (एसएस-39670), (आई सी-65624ए), इन्फैन्ट्री
गजेंद्र सिंह शेखावत (एसएस-39671), (आई सी-65625एच), इन्फैन्ट्री
विनोद जोशी (एसएस-39672), (आई सी-65626एल), इन्फैन्ट्री
दिव्या मणि शुक्ला (एसएस-39674), (आई सी-65627एन),
इंजीनियर्स

शैलेंद्र सिंह शेखावत (एसएस-39675), (आई सी-65628डब्ल्यू),
एसी

अनुराग शर्मा (एसएस-39676), (आई सी-65629वाई), सिग्नल्स
सिद्धार्थ विरमानी (एसएस-39678), (आई सी-65630एन), सिग्नल्स
मान सिंह (एसएस-39679), (आई सी-65631डब्ल्यू), इंजीनियर्स
फकीर अब्बास (एसएस-39681), (आई सी-65632वाई), एसी
विश्वास पी (एसएस-39682), (आई सी-65633एफ), इंजीनियर्स
माधवेंद्र सिंह (एसएस-39683), (आई सी-65634के), ईएमई
मयंक तिवारी (एसएस-39685), (आई सी-65636पी), मैक/इन्फैन्ट्री
संजीत एस ज्ञानी (एसएस-39686), (आई सी-65637एक्स), इन्फैन्ट्री
विकास त्यागी (एसएस-39690), (आई सी-65638ए), एससी
आदित्य कपूर (एसएस-39693), (आई सी-65639एच), एसी
(ख) उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित
होगी:—

(1) वेतन वृद्धि के लिये तारीख 02 मार्च 2002

(2) पदोन्नति के लिये तारीख 02 नवम्बर 2002

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष
बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही
रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी
गयी है।

एम.एल.एन. श्रवण कुमार
कर्नल
कर्नल एमएस-7

संख्या 413 दिनांक 27 जुलाई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

कप्तान से मूलत्व मेजर के रैंक में

कप्तान बिजय कुमार शाहू (वीएस-1041डब्ल्यू), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004

कप्तान एन के वालमीक (वीएस-1046पी), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004

कप्तान भूपेन्द्र सिंह (वीएस-1047एक्स), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004
के एस ग्रेवाल कप्तान (वीएस-1050एक्स), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005

कप्तान दीपक भाटिया (वीएस-1051ए), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005

कप्तान एचएस डिल्लन (वीएस-1053एल), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005

कप्तान विनोद कुमार (वीएस-1058के), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005

कप्तान शफीक आर खान (वीएस-1070एल), आरवीसी, 10 मार्च 2005

तोपखाना रेजिमेन्ट

बीएचएम जय राम (सं. 14485498के अब जेसी-270374एक्स), 01 मार्च 2007/01 सितम्बर 2006 *

हवलदार विजय शंकर पाण्डे (सं. 14364047एफ अब जेसी-270375ए), 11 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार प्रशांत के (सं. 15111987एक्स अब जेसी-270376एच), 25 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार निनगप्पा रोनाड (सं. 14365023के अब जेसी-270377एल), 04 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार मनोज कुमार वर्मा (सं. 15122314एच अब जेसी-270378एन), 13 जनवरी 2007/27 नवम्बर 2006 *

हवलदार सथीसन टी आर (सं. 14371595एफ अब जेसी-270379डब्ल्यू), 09 फरवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार महावीर यादव (सं. 14482614डब्ल्यू अब जेसी-270380एल), 14 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार विजय सिंह (सं. 14487437एल अब जेसी-270381एन), 13 मार्च 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार हेम राज (सं. 14396432वाई अब जेसी-270382डब्ल्यू), 03 मार्च 2007/28 जनवरी 2007 *

हवलदार छोट्टे लाल (सं. 7773375पी अब जेसी-270383वाई), 04 मार्च 2007/31 जनवरी 2007 *

हवलदार जय सिंह (सं. 14472377के अब जेसी-270384एफ), 27 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

बीएचएम गंधला सौन्दरा राजा (सं. 14486686एक्स अब जेसी-270385के), 15 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *

बीएचएम प्रभाकर अर्जुन पवार (सं. 14478537पी अब जेसी-270386एम), 28 मार्च 2007/04 फरवरी 2007 *

हवलदार बीरेन्द्र कुमार (सं. 14391781वाई अब जेसी-270387पी), 07 मार्च 2007/13 फरवरी 2007 *

हवलदार पृथ्वी राज पाण्डे (सं. 14390152पी अब जेसी-270388एक्स), 12 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

हवलदार चन्द्रप्पा एच एन (सं. 14369042एम अब जेसी-270389ए), 18 अप्रैल 2007/01 मार्च 2007 *

आरएचएम दिवाकर एम जे (सं. 15121598एल अब जेसी-270416वाई), 02 अगस्त 2006/23 जून 2006 *

हवलदार स्वीन्दर सिंह (सं. 14495042वाई अब जेसी-270417एफ), 15 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार ऋषी सिंह (सं. 14493536के अब जेसी-270418के), 20 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार भगवन्त सिंह (सं. 14488060वाई अब जेसी-270419एम), 01 सितम्बर 2006

आरएचएम प्रदीप कुमार (सं. 14415840एफ अब जेसी-270420एफ), 27 जनवरी 2007/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम वी प्रसन्ना कुमार (सं. 15121597एच अब जेसी-270421के), 05 जनवरी 2007/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम खामकर रविन्द्र बालकृष्ण (सं. 14413185पी अब जेसी-270422एम), 05 जनवरी 2007/26 अक्टूबर 2006 *

बीएचएम गुलजार सिंह (सं. 14486252एक्स अब जेसी-270423पी), 20 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार महावीर प्रसाद (सं. 15106848के अब जेसी-270424एक्स), 07 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 15100054एच अब जेसी-270425ए), 13 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार धर्मजीत सिंह (सं. 14391814वाई अब जेसी-270426एच), 01 फरवरी 2007

हवलदार वी रंगनाथन (सं. 14383702के अब जेसी-270427एल), 12 फरवरी 2007/01 फरवरी 2006 *

हवलदार गुरबचन सिंह (सं. 14385592वाई अब जेसी-270428एन), 19 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 15113503एल अब जेसी-270429डब्ल्यू), 26 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

×(ज्येष्ठता प्राप्त)

पायनियर कोर

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

रैंक, नाम, आर्मी नम्बर अब जेसी नम्बर, पदोन्नति दिनांक

हवलदार (जीडी) सुरेंद्र राय (नं. 8029049डब्ल्यू अब जेसी-829371एम), 26 दिसम्बर 2006*

हवलदार (जीडी) राम निवास पंकज (नं. 8030603एच अब जेसी-829372पी), 01 फरवरी 2007

हवलदार (जीडी) जगन्नाथ साहू (नं. 8030629एक्स अब जेसी-829373एक्स), 01 फरवरी 2007

हवलदार (जीडी) किशन सिंह (नं. 8029664एन अब जेसी-829374ए), 01 फरवरी 2007

हवलदार (जीडी) शाहाजी शंकर कोली (नं. 8029690पी अब जेसी-829375एच), 01 फरवरी 2007

हवलदार (जीडी) प्रहलाद मीना (नं. 8029779के अब जेसी-829376एल), 01 अप्रैल 2007

हवलदार (जीडी) ओम प्रकाश सिंह (नं. 8030648एच अब जेसी-829377एन), 02 अप्रैल 2007#

हवलदार (जीडी) दिलीप कुमार ठाकुर (नं. 8030762ए अब जेसी-829378डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2007#

हवलदार (जीडी) आनंद बहादुर (नं. 8029887एल अब जेसी-829379वाई), 01 मई 2007

* वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

#वरिष्ठता 01 अप्रैल 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

पी. रामा शास्त्री
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 414 दिनांक 26 जुलाई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार छेरिंग मुटुप (जेसी-175145एफ), 01 दिसम्बर 2006

सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-184933एम), 01 जून 2007

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (टीजे-2630वाई), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-211652एच), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर थापा (जेसी-612074वाई), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार चितरा बहादुर गुरूंग (जेसी-212813एन), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार केवल दत्त, एसएम (जेसी-428203एन), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-236196एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार हरदीन राम (जेसी-448304एच), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-841007ए), 01 जून 2007

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह बोरा (जेसी-841009एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार तीर्थ सिंह रावत (जेसी-841011एच), 01 जून 2007

नायब सूबेदार सी जोसेफ (जेसी-841029वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार देश राज (जेसी-841014डब्ल्यू), 01 जून 2007

नायब सूबेदार रविन्द्रानाथ पाटिल (जेसी-841032वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-171866एन), 01 जून 2007

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) मो. समसूल आलम (जेसी-841455एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) अनंत राम (जेसी-841457एक्स), 01 जून 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) ओंकार शरन राठी (जेसी-841458ए), 01 जून 2007

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली

सं. 415 तारीख 27 जुलाई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्मशिक्षक) जित राम भट्ट (जेसी-120472एम), 02 मार्च 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 दी जाती है)

सूबेदार (धर्मशिक्षक) गुरमीत सिंह (जेसी-152325एक्स), 01 मई 2007

जोश थोमस
अवर सचिव

सं. 416 दिनांक 27 जुलाई 2007—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडी) जयराजन के के (जेसी-723478डब्ल्यू),
01 जनवरी 2007

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडी) सुरेन्द्र नाथ मोहन्ता (जेसी-723154एल),
01 जनवरी 2007

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडी) रमन कुमार शर्मा (जेसी-723474ए),
01 जनवरी 2007

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन रमेश सिंग ठाकुर
(जेसी-723482वाई), 01 फरवरी 2007

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी बंकुर रमि रेड्डी (जेसी-723517के),
01 फरवरी 2007

सूबेदार मेजर ड्राईवर एमटी रामजित चोडवे (जेसी-725471एल),
09 फरवरी 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी हामोधरन वी (जेसी-723041एच),
12 फरवरी 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार मेजर एस के टी अम्युनिशन बिकाश रंजन घोष
(जेसी-723074एन), 15 फरवरी 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार मेजर लिपिक जीडी कमेर चंद राना (जेसी-723410पी),
14 फरवरी 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार मेजर एस के टी अम्युनिशन हरबंस सिंह (जेसी-7233257के),
02 अप्रैल 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार मेजर लिपिक जीडी श्री कुमारन के (जेसी-723486पी),
16 अप्रैल 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार मेजर एस के टी अम्युनिशन शम्भु नाथ रोड़ (जेसी-723311एम),
01 मई 2007

सूबेदार मेजर एस एच जी डी बनेस्वर बिस्वास (जेसी-725252के),
01 मई 2007

विशेष सूची

सेना आयुद्ध कोर

सूबेदार मेजर धर्म गुरू (पंडित)

पक्के सूबेदार मेजर (पंडित) शिव कुमार पांडे (जेसी-110765के),
01 दिसम्बर 2006

पक्के सूबेदार मेजर (पंडित) रमा शंकर झा (जेसी-110766एम),
01 दिसम्बर 2006

सूबेदार धर्म गुरू (पंडित)

पक्के सूबेदार (संगीतकार) घनश्याम (जेसी-723149ए),
01 दिसम्बर 2006

पक्के सूबेदार (संगीतकार) राम नाथ मिश्रा (जेसी-723147पी), 01
दिसम्बर 2006

पक्के सूबेदार (संगीतकार) गुरू प्रशाद पाठक (जेसी-723269वाई),
01 दिसम्बर 2006

पक्के सूबेदार मेजर (संगीतकार) रमाकांत मिश्रा (जेसी-723269वाई),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार धर्म गुरू (पंडित)

जेसीएनएवाईए नायब सूबेदार धर्म गुरू (पंडित) शैलेन्द्रा कुमार पांडे
(अब जेसी-727089एन), 02 दिसम्बर 2006

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार के रैंक में

सूबेदार एस एच जी डी दुधेश्वर पाठक (जेसी-726316डब्ल्यू),
07 जनवरी 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी।)

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन आनुमता सिंग (जेसी-725095एच),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगिसर सिंग (जेसी-725595ए), 01 जनवरी
2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन क्रिपा शंकर मिश्रा (जेसी-725540डब्ल्यू),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हरबिंदर सिंग (जेसी-725630एक्स),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन करन सिंग (जेसी-725585डब्ल्यू),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बलवीर सिंह (जेसी-725629एच),
07 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी एम टी अलोक कुमार मुखोपध्या (जेसी-725303एम),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन अकोल्कर भरत राधकिशन
(जेसी-725150एन), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन बिक्काद श्रिरंग शंकर
(जेसी-725151डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन सुरेंद्र सिंह गिल्ल (जेसी-725133एन),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी के पुरुसोत्थमन (जेसी-725176एच),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी प्रमोद प्रभाकर (जेसी-725156पी),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल तरसिम सिंह फाजल (जेसी-725622एल),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सतपाल चनकोरिया (जेसी-725589एम),
17 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन दीदार सिंह (जेसी-725590एफ), 01
जनवरी 2007

सूबेदार एस के टी एम टी अजय कुमार यादव (जेसी-725192ए),
06 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन कृष्ण हालागेकर
(जेसी-724596डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी रामजी राम गुप्ता
(जेसी-725174एक्स), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन एच बाबुलाल भाव सिंह
(जेसी-725149वाई), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन राजेन्द्र कुमार मिश्रा
(जेसी-725148डब्ल्यू), 07 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन के शंजय कृष्णा राव (जेसी-725131एच),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी एम टी जगत पाल यादव (जेसी-725194एल),
07 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी मान सिंह (जेसी-725096एल),
12 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रमोद सिंह राना (जेसी-725545पी),
01 जनवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी महोम्मद मुर्तुजा (जेसी-724539पी),
05 जनवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी ए मुर्गा साम्मी (जेसी-725207एक्स),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी दिलीप कुमार सिंह
(जेसी-725220एफ), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी बलवंत सिंह (जेसी-725155एम),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जय भगवन (जेसी-725596एच),
01 फरवरी 2007

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रविंदर प्रसाद ठाकुर
(जेसी-724599के), 01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगदीश चंद (जेसी-725593पी),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगन नाथ (जेसी-725543के), 01 जनवरी
2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राम करन सिंह (जेसी-725551एच),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रंगि राम (जेसी-725550ए), 01 जनवरी
2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राकेश कुमार (जेसी-725628ए),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन रगवेंदर सिंह यादव (जेसी-725678एल),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन वेनु गोपाल पिल्लै वि एन
(जेसी-725597एल), 01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन गबर सिंह रावत (जेसी-725538वाई),
07 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल ओम प्रकाश कापूर (जेसी-725591के),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन हरभजन सिंह (जेसी-725599डब्ल्यू),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रफुल्ल दौरह (जेसी-725541वाई),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल मोहन सिंघ कथत (जेसी-725587एफ),
01 जनवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल केवल सिंघ (जेसी-725598एन),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जैनुल एब्दिन खान (जेसी-725631ए),
01 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल धरम पाल (जेसी-725588के), 03 जनवरी
2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जित कुमार (जेसी-725594एक्स),
28 जनवरी 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन सुरेश कुमार कौशिक
(जेसी-725585डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन इकबाल सिंघ (जेसी-725635डब्ल्यू),
01 मार्च 2007

सूबेदार एस के टी एम टी हरि किशन (जेसी-725172एम), 01 जनवरी
2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन शेल्के बबन सोनु (जेसी-725099एन),
01 जनवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी राधा क्रिश्ना (जेसी-725132एल),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन भगवति प्रसाद (जेसी-725147एन),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन औते नरायन राव साहेब
(जेसी-725152वाई), 08 फरवरी 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी के चंद्र बड़ा पंडा (जेसी-725243एच),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी बहादुर सिंघ (जेसी-725212एच),
01 मार्च 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी रमेश कुमार (जेसी-725208ए),
01 मार्च 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी वेंकट चलम आर (जेसी-725175ए),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी गुलशन कुमार (जेसी-725209एच),
01 मार्च 2007

सूबेदार एस एच जी डी प्रमोद कुमार चौधरी (जेसी-726342एक्स),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी मिश्र कुमार मलविया
(जेसी-725213एल), 01 मार्च 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी राज सिंघ (जेसी-725210एक्स),
03 मार्च 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन आशोक कुमार चम्ब्याल
(जेसी-725642एम), 01 मार्च 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गुरबक्स सिंघ सोरत (जेसी-725638के),
01 मार्च 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बाल क्रिशन यादव (जेसी-725636वाई),
08 मार्च 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी गोविंद चंद्र दाश (जेसी-725244एल),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी नित्यानंद लेंका (जेसी-725179डब्ल्यू),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी ए लुकास (जेसी-725153एफ),
01 फरवरी 2007

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी जगदीश प्रसाद गुर्जर
(जेसी-725130ए), 19 फरवरी 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन शेष राम (जेसी-725586वाई), 01 जनवरी
2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन सोम वीर सिंघ (जेसी-725539एफ),
01 मार्च 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी सुबाश चंद (जेसी-725260एच),
24 मार्च 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी सत्या प्रकाश सिंह (जेसी-725250वाई), 07 मार्च 2007*	सूबेदार एस एच जी डी राजबीर सिंह (जेसी-726467पी), 07 मई 2007*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)
सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी प्रेम कुमार तिवारी (जेसी-725222एम), 01 मार्च 2007	सूबेदार एस एच जी डी नंद किशोर ठाकुर (जेसी-726487एच), 01 मई 2007
सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी उशा कांता साबत (जेसी-725245एन), 01 मार्च 2007	सूबेदार एस एच जी डी रघुनाथ राम (जेसी-726460एल), 01 मई 2007
सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी एस चंद्र पटनायक (जेसी-725302के), 24 मार्च 2007*	सूबेदार ड्राईवर एम टी राजबीर सिंह (जेसी-726579पी), 01 मई 2007
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)	सूबेदार ड्राईवर स्पेशल नंदलाल भगत (जेसी-726489एन), 01 मई 2007
सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन बिरेंदर सिंह चौहान (जेसी-725634एन), 01 मार्च 2007	सूबेदार एस एच जी डी माने भीमराव शिभाप्पा (जेसी-726442एच), 01 मई 2007
सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन किशोरी लाल (जेसी-725641के), 21 मार्च 2007*	सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी सुरेंद्र पाल (जेसी-725022के), 01 मार्च 2007
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)	सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी राजेश कुमार सिंह (जेसी-725258एल), 01 मार्च 2007
सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राम प्रकाश (जेसी-725639एम), 01 मार्च 2007	सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी देभि राम (जेसी-725177एल), 01 फरवरी 2007
सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन सुजीत सिंह (जेसी-725637एफ), 01 मार्च 2007	सूबेदार लिपिक एस कन्दोल सुदर्शन सिंह (जेसी-725592एम), 01 जनवरी 2007
सूबेदार ड्राईवर एम टी कलत्तकर प्रसाद (जेसी-726433एफ), 01 फरवरी 2007	सूबेदार एस एच जी डी सोम राज (जेसी-726443एल), 01 मई 2007
सूबेदार एस के टी अम्युनिशन ब्रिज किशोर त्रिपाठी (जेसी-725271पी), 05 फरवरी 2007*	सूबेदार एस एच जी डी प्रमचम्लिंग राड़ (जेसी-726589वाई), 01 मई 2007
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)	सूबेदार ड्राईवर एम टी रमा शंकर सिंह (जेसी-728533एम), 19 मई 2007
सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी रम अवध सिंह (जेसी-725246डब्ल्यू), 01 मार्च 2007	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)
सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन रमेश सिंह जमवल (जेसी-725640एफ), 01 मार्च 2007	सूबेदार एस एच जी डी सतेंदेर मोहन (जेसी-726457एल), 01 मई 2007
सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन दलबारा सिंह (जेसी-725714एल), 01 मार्च 2007	सूबेदार ड्राईवर एम टी अम्भोरे एक्नाथ दौलत (जेसी-726452एम), 01 मई 2007
सूबेदार एस एच जी डी जगताप बाबू जैवत राब (जेसी-726555एल), 01 मई 2007	सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी श्यामवीर सिंह (जेसी-725259एन), 01 मार्च 2007*
सूबेदार एस एच जी डी सुभाष सिंह (जेसी-726518एक्स), 01 मई 2007	सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी तानजि सोपन व्हानले (जेसी-725091एम), 22 फरवरी 2007*
सूबेदार एस एच जी डी बनसी दास (जेसी-726517पी), 01 मई 2007	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)
	नायब सूबेदार के रैंक में
	हवलदार क्लर्क जी डी साजन राम यादव (सं. 6921212ए अब जेसी-727386एफ), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अरुमुधम वी (सं. 6919502वाई अब जेसी-727387के), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस के टी एम टी राजबीर सिंह (सं. 69120596वाई अब जेसी-727388एम), 26 फरवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिगनल गिरीश बाबू यादव (सं. 6921660एम अब जेसी-727389पी), 11 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन अमर जीत सिंह (सं. 6929865डब्ल्यू अब जेसी-727390के), 01 फरवरी 2007

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन नशी राम (सं. 6931391वाई अब जेसी-727391एम), 06 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी जयंता नारायण (सं. 6920471डब्ल्यू अब जेसी-727392पी), 18 मार्च 2007*

हवलदार एस के टी एम टी सुख देव यादव (सं. 6920524के अब जेसी-727393एक्स), 23 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी तुसेर कुमार घोस (सं. 6920595एल अब जेसी-727394ए), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी सिगनल सत्या प्रकाश शर्मा (सं. 6920682वाई अब जेसी-727395एच), 27 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी प्रतिपाल सिंह (सं. 6921013एम अब जेसी-727396एल), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी सिगनल जयेंद्रा प्रसाद (सं. 6921634एल अब जेसी-727398डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी एम टी पूरन सिंह बिष्ट (सं. 6921702एन अब जेसी-727399वाई), 19 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी ए रवी चंद्रन (सं. 6928126एक्स अब जेसी-727400एच), 23 फरवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी पुश्कर सिंह बिष्ट (सं. 6919594डब्ल्यू अब जेसी-727434डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रामवीर सिंह (सं. 6919621पी अब जेसी-727401एल), 01 मार्च 2007

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन आनंद चंद्रा बेहरा (सं. 6919625एल अब जेसी-727402एन), 03 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल खगेश्वर स्वैन (सं. 6919632एच अब जेसी-727403डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी सिगनल उदयवीर सिंह (सं. 6920651वाई अब जेसी-727404वाई), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी अम्पुनिशन रिशी पाल (सं. 6920827वाई अब जेसी-727405एफ), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी अस्वनि कुमार (सं. 6920899एच अब जेसी-727406के), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी मोहन सिंह मल (सं. 6921020एच अब जेसी-727407एम), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी सिगनल साग्या राज टी (सं. 6921703डब्ल्यू अब जेसी-727408पी), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी सिगनल अभय प्रताप सिंह (सं. 6921714एच अब जेसी-727409एक्स), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी रंजीत सिंह (सं. 6927320ए अब जेसी-727410एम), 11 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी क्रिश्ना पादा दास (सं. 6918691एफ अब जेसी-727411पी), 06 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी रमाकब्ले पारित (सं. 6918700एक्स अब जेसी-727412एक्स), 01 मार्च 2007

हवलदार एस एच जी डी नंदु सव (सं. 6918704एन अब जेसी-727413ए), 01 मार्च 2007

हवलदार एस एच जी डी कनहिया लाल (सं. 6918709एम अब जेसी-727414एन), 01 मार्च 2007

हवलदार एस एच जी डी जीतेंद्रा सिंहा (सं. 6918733एच अब जेसी-727415एल), 01 मार्च 2007

हवलदार टेलर (यूनिट) सत्या पाल (सं. 6925882वाई अब जेसी-727416एन), 01 मार्च 2007

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन तपन कुमार साहा (सं. 6925566ए अब जेसी-727417डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रजापती दिलीप भाई (सं. 6919652पी अब जेसी-727418वाई), 01 अप्रैल 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बौचकर कांतु बापु (सं. 6919666पी अब जेसी-727419एफ), 01 अप्रैल 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम नाथ (सं. 6919682एम अब जेसी-727420डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन संत बक्स सिंह (सं. 6919700के अब जेसी-727421वाई), 01 अप्रैल 2007

हवलदार क्लर्क जी डी जी आर आम्लाकिंग (सं. 6919702पी अब जेसी-727422एफ), 01 अप्रैल 2007

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन ससाने बाहु राव (सं. 6919710एन अब जेसी-727423के), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी सिगनल मधू सुधनन एम (सं. 6921709एक्स अब जेसी-727424एम), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी एम टी शिव पाल सिंह (सं. 6921716एन अब जेसी-727425पी), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी एम टी नैना राम चौधरी (सं. 6921744ए अब जेसी-727426एक्स), 29 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी एम कांताप्रसाद राम (सं. 6921728एच अब जेसी-727427ए), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी एम टी खुशी राम (सं. 6921746एल अब जेसी-727428एच), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी एम टी विनोद प्रसाद (सं. 6921747एन अब जेसी-727429एल), 01 अप्रैल 2007

हवलदार ड्राईवर एम टी हरबंस सिंह (सं. 6919066एम अब जेसी-727430ए), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस एच जी डी भूपेन कुमार दास (सं. 6918740वाई अब जेसी-727431एच), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस एच जी डी ईश्वर चंद सिंह (सं. 6918763एन अब जेसी-727432एल), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस एच जी डी झक बहादुर पून (सं. 6918820डब्ल्यू अब जेसी-727433एन), 01 अप्रैल 2007

हवलदार एस के टी एम टी वी काप्पू सामी (सं. 6921212ए अब जेसी-727334एल), 26 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन प्रवात कुमार मोहपात्रा (सं. 6919941के अब जेसी-727335एन), 30 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन राजेंद्रा सिंह (सं. 6930804एल अब जेसी-727336डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क जी डी जया प्रकाश के सी (सं. 6919175वाई अब जेसी-727337वाई), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बलबीर सिंह यादव (सं. 6919183एक्स अब जेसी-727338एफ), 09 फरवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल लीलाधर स्वामी (सं. 6919189वाई अब जेसी-727339के), 31 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल फकीर सोउकत खान (सं. 6919194के अब जेसी-727340वाई), 12 फरवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन चंद्रा भूशन (सं. 6921635एन अब जेसी-727341एफ), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार एस एच टी देवेंद्रा राम त्रिपाठी (सं. 6918662एम अब जेसी-727342के), 19 फरवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी सुबाश चंद्रा प्रधान (सं. 6918596पी अब जेसी-727343एम), 15 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी इकवाडे हिमत राव बाबू (सं. 6917804एम अब जेसी-727344पी), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल योगेंद्रा नाथ राम (सं. 6919300एक्स अब जेसी-727345एक्स), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जगमोहन पुरी (सं. 6919361पी अब जेसी-727310एफ), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन जोगिंदर सिंह (सं. 6919366एन अब जेसी-727346ए), 19 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल भगवान दास (सं. 6919379एल अब जेसी-727347एच), 21 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन नामदेव पाटिल (सं. 6919420डब्ल्यू अब जेसी-727348एल), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एस कंथिया (सं. 6919360एक्स अब जेसी-727349एन), 09 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन दलीप सिंह (सं. 6921649एन अब जेसी-727350एच), 25 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिग्नल उमेश चंद्रा (सं. 6921658पी अब जेसी-727351एल), 01 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिग्नल राज कुमार (सं. 6921663ए अब जेसी-727352एन), 16 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी राम कुमार सिंह (सं. 6918070एच अब जेसी-727353डब्ल्यू), 01 जनवरी 2007

हवलदार टेलर (यूनिट) बलदेव सिंह (सं. 6922391एक्स अब जेसी-727354आई), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क जी डी नसीब सिंह (सं. 6922365एल अब जेसी-727355एफ), 01 फरवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल गौरी शंकर सिंह (सं. 6919563डब्ल्यू अब जेसी-727356के), 07 मार्च 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी अशोक कुमार आमंता (सं. 6919578आई अब जेसी-727357एम), 01 फरवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल थुलसी कुमार (सं. 6919605एक्स अब जेसी-727358पी), 01 मार्च 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जगदीश वी (सं. 6919606ए अब जेसी-727359एक्स), 01 मार्च 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी राजीव रंजन दुबे (सं. 6920206ए अब जेसी-727360एम), 14 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी राम प्रताप सिंह (सं. 6920659एल अब जेसी-727361पी), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी महीपाल (सं. 6920883एक्स अब जेसी-727362एक्स), 23 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी इस्वर सिंह (सं. 6920942आई अब जेसी-727363ए), 14 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन महेन्द्रा सिंह (सं. 6921357एल अब जेसी-727364एच), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी सिग्नल ओंकार सिंह (सं. 6921669एफ अब जेसी-727365एल), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी सिग्नल एन मधू मोहनन पिल्लै (सं. 6921681एच अब जेसी-727366एन), 21 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिग्नल निरंजन (सं. 6921683एन अब जेसी-727367डब्ल्यू), 21 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी रत्नपाल सिंह (सं. 6927209डब्ल्यू अब जेसी-727368आई), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी अम्युनिशन सफी मोहद खान (सं. 6927845के अब जेसी-727369एफ), 28 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन जगदीश कुमार त्यागी (सं. 6928066एन अब जेसी-727370डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी सुभाष चंदर (सं. 6928129एल अब जेसी-727371आई), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी एम टी इंदर जीत सिंह (सं. 6929483एम अब जेसी-727372एफ), 27 फरवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी हनुमंत परसराम पाटिल (सं. 6918669डब्ल्यू अब जेसी-727373के), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस एच जी डी नित्यानंद हल्दर (सं. 6918689के अब जेसी-727374एम), 01 फरवरी 2007

हवलदार क्लर्क जी डी गिरजा शंकर नायक (सं. 6919591एच अब जेसी-727375पी), 01 मार्च 2007

हवलदार क्लर्क जी डी बंकिमोचंद्रा बेहरा (सं. 6919598एम अब जेसी-727376एक्स), 01 मार्च 2007

हवलदार क्लर्क जी डी प्रियादर्शी आचर्या (सं. 6919601एफ अब जेसी-727377ए), 01 मार्च 2007

हवलदार क्लर्क जी डी आनंता मोहंती (सं. 6919622एक्स अब जेसी-727378एच), 01 मार्च 2007

हवलदार एस एच जी डी किशन कुमार सिंह (सं. 6918703एल अब जेसी-727379एल), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी राम धानी सिंह यादव (सं. 6920608एक्स अब जेसी-727380ए), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी सिगनल जगदीश चंद (सं. 6920702के अब जेसी-727381एच), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी एम टी तपन कुमार नाथ (सं. 6921087एफ अब जेसी-727382एल), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी अम्युनिशन मरिदुल बोरा (सं. 6921467ए अब जेसी-727383एन), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी अम्युनिशन असित कुमार दास (सं. 6921488डब्ल्यू अब जेसी-727384डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी एम टी जोहन सी एस (सं. 6921705एफ अब जेसी-727385वाई), 01 मार्च 2007

हवलदार एस के टी अम्युनिशन इंदर पाल (सं. 6921358एन अब जेसी-727302एच), 30 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी महेंद्रा सिंह यादव (सं. 6919206एन अब जेसी-727303एल), 25 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन मेन पाल (सं. 6929864एन अब जेसी-727304एन), 22 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन प्रदीपन एस आर (सं. 6930853एन अब जेसी-727305डब्ल्यू), 20 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अमीर पाल सिंह (सं. 6919167ए अब जेसी-727306वाई), 15 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल भगत भीम राव (सं. 6919179पी अब जेसी-727307एफ), 12 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल धूमल रामाचंद्रा सुंदराव (सं. 6919215पी अब जेसी-727308के), 10 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन जै चंद (सं. 6919302एच अब जेसी-727309एम), 16 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी पारथ सिंह चौहान (सं. 6919403डब्ल्यू अब जेसी-727311के), 24 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल खवरे लक्ष्मन भाउ (सं. 6919418वाई अब जेसी-727312एम), 25 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मल्लेशम्पा डोडामनी (सं. 6919421वाई अब जेसी-727313पी), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल महेंद्रा प्रसाद सिंह (सं. 6919560एच अब जेसी-727314एक्स), 11 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन अप्पा साहिब (सं. 6921495एम अब जेसी-727315ए), 19 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन राधा क्रिशनन आर (सं. 6921627पी अब जेसी-727316एच), 17 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन रिपन लाल (सं. 6921645एक्स अब जेसी-727317एल), 28 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन राजेंद्र बाबू (सं. 6921655एफ अब जेसी-727318एन), 25 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिगनल गोपाल प्रसाद (सं. 6921659एक्स अब जेसी-727319डब्ल्यू), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस के टी वेपन अशोक कुमार शर्मा (सं. 6921661पी अब जेसी-727320एल), 14 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिगनल रघुबीर सिंह (सं. 6921667डब्ल्यू अब जेसी-727321एन), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस एच टी बीराम सिंह (सं. 6918365वाई अब जेसी-727282ए), 16 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी हरी नारायण जाट (सं. 6918430एन अब जेसी-727322डब्ल्यू), 16 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी श्याम सिंह (सं. 6918499एक्स अब जेसी-727323वाई), 04 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी चंदेश्वर प्रसाद (सं. 6918464एफ अब जेसी-727284एल), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस एच जी डी अडया नाथ प्रधान (सं. 6918504एक्स अब जेसी-727324एफ), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार एस एच जी डी बाबू लाल लकरा (सं. 6918600एम अब जेसी-727325के), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार एस एच जी डी उग्रा सेन भूटिया (सं. 6918629पी अब जेसी-727326एम), 01 जनवरी 2007

हवलदार पेंटर (यूनिट) सुधेर प्रसाद सिंह (सं. 6918399एम अब जेसी-727327पी), 16 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम नारायण सिंह (सं. 6919565एफ अब जेसी-727328एक्स), 01 फरवरी 2007

हवलदार क्लर्क जी डी ब्रिज मोहन लकरा (सं. 6919583के अब जेसी-727329ए), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस के टी एम टी दलवीर सिंह बलोरिया (सं. 6926520के अब जेसी-727330पी), 01 फरवरी 2007

हवलदार ड्राईवर एम टी निलेंद्र जेन्ना (सं. 6938036के अब जेसी-727331एक्स), 01 फरवरी 2007

हवलदार ड्राईवर एम टी रमेशन ए (सं. 6941836एन अब जेसी-727332ए), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस एच जी डी भूवन चंद्रा जोशी (सं. 6918672डब्ल्यू अब जेसी-727333एच), 01 फरवरी 2007

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन एस रूशेल राज (सं. 6925003ए अब जेसी-727249एच), 11 दिसम्बर 2006

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन विनोद कुमार (सं. 6929737वाई अब जेसी-727250एक्स), 23 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल धन्ना लाल दौवल (सं. 619026एच अब जेसी-727251ए), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार क्लर्क जी डी कपिल देव यादव (सं. 6919047एल अब जेसी-727252एच), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी गंजगे जनार्दन (सं. 6921353पी अब जेसी-727253एल), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार एस के टी अम्युनिशन महेन्द्र सिंह (सं. 6921362डब्ल्यू अब जेसी-727254एन), 05 नवम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन गोपाल सिंह (सं. 6921363वाई अब जेसी-727255डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार एस के टी अम्युनिशन केवल सिंह (सं. 6921366वाई अब जेसी-727256वाई), 16 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच टी श्री क्रिशन (सं. 6918531एफ अब जेसी-727257एफ), 05 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी केशव प्रसाद (सं. 6918476डब्ल्यू अब जेसी-727258के), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार एस एच जी डी मुकेश चंद (सं. 6918477वाई अब जेसी-727259एम), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन देवेंद्र प्रताप सिंह (सं. 6929763ए अब जेसी-727260एफ), 06 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन संजीव कुमार (सं. 6929772एक्स अब जेसी-727261के), 01 नवम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल कमल सिंह मीना (सं. 6919169एल अब जेसी-727262एम), 01 नवम्बर 2006

हवलदार एस के टी अम्पुनिशन आनंद लाल (सं. 6921486एल अब जेसी-727263पी), 05 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन रविंद्रा कोरामे (सं. 6921491डब्ल्यू अब जेसी-727264एक्स), 10 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी बिजेंद्र शर्मा (सं. 6918493डब्ल्यू अब जेसी-727265ए), 01 नवम्बर 2006

हवलदार एस एच जी डी इंद्रजीत मंडल (सं. 6918500एफ अब जेसी-727266एच), 01 नवम्बर 2006

हवलदार एस एच जी डी जमेजय मुदुली (सं. 6918659एम अब जेसी-727267एल), 08 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रवीन कुमार (सं. 6919170ए अब जेसी-727268एन), 26 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिपिन सिंह (सं. 6919172एल अब जेसी-727269डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल दयानंद राठी (सं. 6919173एन अब जेसी-727270एल), 11 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एच दिनेश क्रिशना राव (सं. 6919177के अब जेसी-727271एन), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बाबू मैथ्यू (सं. 6919180के अब जेसी-727272डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी विजय राजन (सं. 6919182पी अब जेसी-727273वाई), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बच्चन जी एद्याथ (सं. 6919184ए अब जेसी-727274एफ), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विद्याधरन पिल्लै वी (सं. 6919186एल अब जेसी-727275के), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सूबेदार यादव (सं. 6919187एन अब जेसी-727276एम), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बलवान सिंह (सं. 6919191डब्ल्यू अब जेसी-727277पी), 15 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी वेपन राम सिंह काजला (सं. 6921600एक्स अब जेसी-727278एक्स), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार एस के टी वेपन विनोद कुमार यादव (सं. 6921616एच अब जेसी-727279ए), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार एस के टी वेपन दिलावर सिंह (सं. 6921628एक्स अब जेसी-727280पी), 09 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी ब्रिंदा लाल शर्मा (सं. 6918348वाई अब जेसी-727281एक्स), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार एस एच जी डी जर्नादन नामदेव लवाटे (सं. 6918392एच अब जेसी-727283एच), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस एच जी डी रमेश चंद्रा स्वैन (सं. 6918630के अब जेसी-727285एन), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस एच जी डी काशी नाथ बेहरा (सं. 6918632पी अब जेसी-727286डब्ल्यू), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मुकेश कुमार (सं. 6919561एल अब जेसी-727287वाई), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शेगी रेड्डी सुब्बा रेड्डी (सं. 6919210डब्ल्यू अब जेसी-727288एफ), 09 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी जय बीर सिंह (सं. 6919253एल अब जेसी-727289के), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क जी डी अमृल्या कुमार पांडा (सं. 6919256वाई अब जेसी-727290वाई), 04 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल पवार दयाराम वमन (सं. 6919257एफ अब जेसी-727291एफ), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आर रामा चंद्रन (सं. 691266एच अब जेसी-727292एफ), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल वेंकटा स्वामी पी (सं. 6919269डब्ल्यू अब जेसी-727293एम), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस प्रविजन शिवाजी आर धानवे (सं. 6919414एच अब जेसी-727294पी), 03 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल उमेद सिंह (सं. 6919440के अब जेसी-727295एक्स), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आर सेल्वराज (सं. 6919444ए अब जेसी-727296ए), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल ससी कुमार कन्नीपोयिल (सं. 6919489ए अब जेसी-727297एच), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रामा क्रिशनन के (सं. 6919490पी अब जेसी-727298एल), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क जी डी अमल सरकार (सं. 6919554पी अब जेसी-727299एन), 01 जनवरी 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सी एस के झा (सं. 6919562एम अब जेसी-727300एक्स), 01 जनवरी 2007

हवलदार एस के टी सिगनल सुरेद्रा सिंह (सं. 6921662एक्स अब जेसी-727301ए), 01 जनवरी 2007

एन.के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 417, दिनांक 26 जुलाई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (एस के टी)

सूबेदार सरोज कांत स्वैन (जेसी-691563एच), 01 मार्च 2007

स्थायी सूबेदार क्लर्क जी डी

नायब सूबेदार हरी श्याम तिवारी (जेसी-693358ए), 01 अप्रैल 2007

स्थायी सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार देवसिंह जीना (जेसी-693627एफ), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार निरूपम गृहचार्या (जेसी-693786वाई), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर सिंह (जेसी-693787एफ), 01 अप्रैल 2007

स्थायी सूबेदार (धर्म शिक्षक)

नायब सूबेदार अवधेश कुमार मिश्रा (जेसी-692120एन), 01 अप्रैल 2007

आर.सी. रातुडी
अवर सचिव

सं. 418, दिनांक 30 जुलाई 2007--थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

हितेश्वर भट्टल (डी आर-10571एम), 23 फरवरी 2006

एल आर गिलबर्ट (डी आर-10572पी), 02 मार्च 2006

थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

देसाई अजय प्रेम नन्द (डी आर-10580एन), 31 मई 2006

पीटर देवदास (डी आर-10581डब्ल्यू), 17 जून 2006

शाह राकेश जयकृष्ण (डी आर-10582वाई), 13 अगस्त 2006

गौरव वोहरा (डी आर-10583एफ), 09 सितम्बर 2006

विशाल गुप्ता (डी आर-10584के), 12 सितम्बर 2006

पूनम प्रकाश (डी आर-10591ए), 16 नवम्बर 2006

अनिता कापरी (डी आर-10593एल), 17 फरवरी 2007

अविनाश कुमार (डी आर-10594एन), 20 फरवरी 2007

अतुल बाली (डी आर-10553के), 08 अप्रैल 2007

थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन से अर्द्धस्थाई मेजर के पद पर

हिरिणी सिरौही (डी एस-12038डब्ल्यू), 26 फरवरी 2006

रोली तिवारी (डी एस-12057एफ), 11 मार्च 2006

अमिता इ जार्ज (डी एस-12040एन), 27 मार्च 2006

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन से अर्द्धस्थायी मेजर के पद पर

अनु आधी (डी एस-12071एन), 12 जनवरी 2007

नरिन्द्र पाहवा (डी एस-12076एम), 21 फरवरी 2007

सोनिया चेरियन (डी एस-12077पी), 24 फरवरी 2007

डी.के. तनेजा
मेजर जनरल
ए.डी.जी.डी.एस

सं. 419, दिनांक 30 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (समकक्ष) से ब्रिगेडियर (समकक्ष) पद पर

हरिन्दर सिंह (एम आर-3582डब्ल्यू), 08 जनवरी 2007 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 01 जनवरी 2007

ले. कर्नल/कर्नल (टीएस)(समकक्ष) से कर्नल (समकक्ष)
(चयनित) पद पर

आर.के. चौधरी (एम आर-4196डब्ल्यू), 23 अगस्त 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 09 दिसम्बर 2005

डी. महापात्रा (एम आर-5453पी), 20 अप्रैल 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 30 जनवरी 2006

बी.एस. राना (एम आर-5183एल), 06 मई 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 13 मार्च 2006

सर्ज कमांडर (समकक्ष) से सर्ज कैप्टन (समकक्ष) पद पर

सर्ज कैप्टन पी.एस. टाम्पी (एम आर-04260एच), (75266), 30 जून 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 14 जनवरी 2006

सर्ज कैप्टन बी.एस. बेदी (एम आर-5859एच), (75313), 30 जून 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 11 मार्च 2006

सर्ज कैप्टन जे. चटर्जी (एम आर-04744एच), (75291), 26 जनवरी 2007 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 03 अक्टूबर 2006

जी. रविन्द्रानाथ
ब्रिगेडियर
उप म.नि.स.से.चि.से. (कार्मिक)

सं. 420, दिनांक 30 जुलाई 2007-- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

नाम, आई सी संख्या, आर्म, सब्सर्टिटिव तिथि

आर.एस. समकार्य (31010), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

एम. धुवराज (35098), इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

आर.के. जाखर (35508), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

जय प्रकाश (37236), इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

विनोद एन.आर. वरी (37426), इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

उत्तम एस परमार (39241), आर्टी, 13 दिसम्बर 2006

वी.एस. राठौर (35184), एएडी, 16 दिसम्बर 2004

कमल ध्रुव (36684), आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

वी.एस. धालीवाल (38862), इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006

आर.पी. वर्मा (38868), इन्ट, 07 जून 2006

एस.के. चौहान (38883), गार्ड्स, 07 जून 2006

जी.जी. मैथ्यू (41060), सिग्नलस, 24 दिसम्बर 2006

डी.सी. ककाती (35279), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

जे.एस. बेन्स (34625), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

देवेन्द्रा गुप्ता (34668), इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

रीपू दमन (37522), आर्टी, 15 नवम्बर 2005

विदेश कुमार (39350), आर्टी, 13 दिसम्बर 2006

अजय गोयल
उप निदेशक
एमएस 8ए

कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा/डी जी 3डी

सं. 421, दिनांक 27 जुलाई 2007--परिवार कल्याण डाक्टरों के संवर्ग के पुनर्गठन के उपरान्त तथा 05 जुलाई 2007 को जारी पदोन्नति आदेश संख्या 35273/एसीपी (सीएमओ)/डीजीएफएमएस/डीजी-3 डी दिनांक 05 जुलाई 2007 के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेतनमान रुपये 12,000-375-16,500/- की श्रेणी में दिनांक 05 जुलाई 2007 से पदोन्नत किया जाता है।

नाम, पदोन्नत पद

डा (श्रीमती) रीता परमाणीक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

डा (श्रीमती) के विजयलक्ष्मी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

डा (श्रीमती) समृति सक्सेना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

डा (श्रीमती) लालडाई कीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अशोक कुमार वर्मा

कर्नल

निदेशक शस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (स्वास्थ्य)

वायु शाखा

सं. 422, दिनांक 30 जुलाई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में

डी मुकुन्दन (13508) प्रशा.-20 नवम्बर 2006

डी एस विष्ट (13088) प्रशा.-01 फरवरी 2007

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

आर के माथुर (15586) प्रशा.-23 फरवरी 2007/20 नवम्बर 2006 (नो.से.)

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एम के मलिक (15743) प्रशा.-के ऊपर आयेगा)

लेखा शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

जी मैथ्यू (14987) लेखा 01 अप्रैल 2006

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस सी गहलौत (14542) लेखा के नीचे आयेगा।)

उड़ान शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

वी आर चौधरी (16978) उ.पा.-01 मार्च 2006

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन अमित देव (16972) उ.पा. और ए के द्विवेदी (16979) उ.पा. के बीच में आयेगा।)

वी शंकर (16386), उ.पा.-01 मार्च 2006

एस बोस (रिटायर्ड-31 दिसम्बर 2006) (16409), उ.पा.-01 मार्च 2006

ओ पी तिवारी (16678), उ.ने.-01 मार्च 2006

एम एस सुरेश (16603), उ.पा.-01 मार्च 2006

आई एस यादव (16620), उ.पा.-03 जुलाई 2006/01 मार्च 2006 (नो.से.)

एस कुमार (16626), उ.पा.-01 मार्च 2006

एस सी एन शर्मा (16629), उ.पा.-01 मार्च 2006

एस डी जोशी (रिटायर्ड 30.06.2006) (16682), उ.ने.-01 मार्च 2006

एम जे के थाम्पी (16632), उ.पा.-01 मार्च 2006

आर चौहान (16228), उ.पा.-27 मार्च 2006

ए एफ डी कुज (16779), उ.पा.-01 अप्रैल 2006

एस श्रीवास्तवा (16786), उ.पा.-01 अप्रैल 2006

ए के अग्रवाल (16793), उ.पा.-15 अप्रैल 2006

ए गुरू (16794), उ.पा.-01 मई 2006

एस.वी. टेंडा (16796), उ.पा.-01 मई 2006

ए के प्रभाकरण (16808), उ.पा.-16 मई 2006

एम धनराज (16210), उ.पा.-15 जुलाई 2006/31 मई 2006 (नो.से.)

सी पी यादव (16828), उ.पा.-10 जुलाई 2006

जे सिंह (16969), उ.पा.-01 सितम्बर 2006

ए गोलानी (16986), उ.पा.-01 सितम्बर 2006

एम चंद्रमौली (16997), उ.पा.-01 सितम्बर 2006

एस बंदोपाध्याय (17024), उ.ने.-01 अक्टूबर 2006

पी शर्मा (17009), उ.पा.-01 नवम्बर 2006

एस सी चाफेकर (17013), उ.पा.-02 फरवरी 2007/20 नवम्बर 2006(नो.से.)

एन हरिश (17135), उ.पा.-01 फरवरी 2007

संभारिकी शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

आर पी जॉर्ज (15751) संभा.-01 अक्टूबर 2006

के वी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी) 2बी

सेना शाखा

सं. 423, दिनांक 30 जुलाई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए डी कोर अफसरों को 04 जुलाई 2005 से अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं और 04 जुलाई 2005 से एडीकोर में थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन स्थाई कमीशन में नियुक्त करते हैं:--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

स्थायी कमीशन

04 जुलाई 2005 से अल्पकालीन कमीशन से स्थाई कमीशन

- (क) कैप्टन देसाई अजय प्रेम नन्द (डीआर-10580एन), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 31 मई 2002 से दी जाती है।
- (ख) कैप्टन पीटर देवदास (डीआर-10581डब्ल्यू), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 17 जून 2002 से दी जाती है।
- (ग) कैप्टन शाह राकेश जैकृष्णा (डीआर-10582वाई), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 13 अगस्त 2002 से दी जाती है।
- (घ) कैप्टन गौरव बोहरा (डीआर-10583एफ), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 09 मार्च 2002 से दी जाती है।
- (ङ) कैप्टन विशाल गुप्ता (डीआर-10584के), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 12 मार्च 2002 से दी जाती है।
- (च) कैप्टन राज कुमार के (डीआर-10585एम), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 19 दिसम्बर 2002 से दी जाती है।
- (छ) कैप्टन अरूण कुमार के वी (डीआर-10586पी), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 06 फरवरी 2003 से दी जाती है।
- (ज) कैप्टन सौगत रे (डीआर-10587एक्स), -04 जुलाई 2005 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 08 मार्च 2003 से दी जाती है।

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
ए. डी. जी. डी. एस.

सेना शाखा

सं. 424, दिनांक 27 जुलाई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कर्नल (सलेक्सन) सी रामाचन्द्रन, एस एम (आई सी-39910)-इन्फैन्ट्री, 31 जनवरी 2006(अ.प्र.)

कर्नल अरविन्द गोबिल (आई सी-34185)-इन्फैन्ट्री, 27 दिसम्बर 2005(अ.प्र.)

कर्नल (सलेक्सन) पाठक संजय रघुनाथ, वाई.एस.एम. (आई सी-35974), इन्फैन्ट्री-27 जनवरी 2006(अ.प्र.)

कर्नल खरब करण सिंह (आई सी-27035), इन्फैन्ट्री-31 जुलाई 1999(अ.प्र.)

कर्नल चन्द्राहास सदाशिव प्रभु (आई सी-39207), इन्फैन्ट्री-12 दिसम्बर 2005(अ.प्र.)

लै. कर्नल कुमार कान्त (आई सी-40232), इन्फैन्ट्री-09 नवम्बर 2005(अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) प्रीतपाल सिंह रनहोत्रा (आई सी-35615), इन्फैन्ट्री-17 अक्टूबर 2005(अ.प्र.)

कर्नल महाजन अशोक (आई सी-31273), इंजीनियर-31 मई 2004 (अ.प्र.)

कर्नल संजीव पुरी (आई सी-35411), इंजीनियर-05 अक्टूबर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल (सलेक्सन) जार्ज मैथ्यू (आई सी-36979), इंजीनियर-24 अप्रैल 2006(अ.प्र.)

कर्नल चरणजीत पाल, वी.एस.एम (आई सी-31573), इंजीनियर-31 मई 2006(अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) अशोक कुमार मल्लिक (आई सी-38200), इंजीनियर-30 अप्रैल 2006(अ.प्र.)

कर्नल संजीव कुमार अरगल, वी.एन.एम. (आई सी-38203)-इंजीनियर, 11 जुलाई 2006(अ.प्र.)

कर्नल प्रदीप कुमार (आई सी-31256), इंजीनियर-31 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

कर्नल खोसला कुलदीप कुमार (आई सी-34307), इंजीनियर-30 जून 2005(अ.प्र.)

कर्नल पी सी अब्राहम (आई सी-30746), इंजीनियर-31 जुलाई 2006(अ.प्र.)

लै. कर्नल बी एन देवइया (आई सी-44890), इंजीनियर-05 अक्टूबर 2006(अ.प्र.)

कर्नल सुनील कपिला (आई सी-39478), सिग्नल-31 अगस्त 2006(अ.प्र.)

लै. कर्नल पवन बक्सी (आई सी-42512), सिग्नल-10 जुलाई 2006(अ.प्र.)

कर्नल नूतन प्रभात (आई सी-39550), सिग्नल-30 सितम्बर 2006 (अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) राम कुमार (आई सी-31958), सिग्नल-21 अगस्त 2006(अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) जगदेव सिंह (आई सी-31227)-सिग्नल, 31 अक्टूबर 2005(अ.प्र.)

कर्नल अभय प्रसाद (आई सी-39171), ईएमई 31 अक्टूबर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल पी वी वी विद्यासागर (आई सी-45395), ईएमई, 30 सितम्बर 2005(अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) महेन्द्र सिंह (आई सी-30968), ईएमई, 31 दिसम्बर 2005(अ.प्र.)

एस के चक्रवर्ती
संयुक्त निदेशक
एमएस/पीआर

वायु शाखा

सं. 425, दिनांक 30 जुलाई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर के उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायु सेना सूची में फ्लाईंग अफसर एस एम भारती (28033) व फ्लाईंग अफसर एस एस पुरुषोत्तमन (28225) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर 02 दिसम्बर 2006 से उड़ान प्रशिक्षण से निलम्बन वर्ग में होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा.से.मु. के पत्र संख्या वा.से.मु./21901/28001/पी ओ-3(ई) दिनांक 22 मई 2007.

फ्लाईंग अफसर वी द्विवेदी (28001) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 02 दिसम्बर 2006 से।

पी सिंह
विंग कमान्डर
जे.डी.पी.ओ-3 (ई)

सेना शाखा

सं. 426, दिनांक 27 जुलाई 2007--

नियमित सेना

(स्थाई आयोग)

(लै. के पद पर 10 दिसम्बर 2005 से)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र, भाग I, अनुभाग 4 के अधिसूचना संख्या 52 जो कि दिनांक 30 दिसम्बर 2006 को प्रकाशित हुआ है उसके शीर्षक (स्थाई आयोग) (नियमित सेवा) में निम्नलिखित संशोधन जो कि टिप्पणा आई सी 67592 एफ ले. शितांशु जैन, ए एस सी के संदर्भ में है:--

“सेना निर्देश 53/74 जिसको कि सेना निर्देश 2/83 के साथ पढ़ा जाए के अर्न्तगत, आई सी 67592 एफ ले. शितांशु जैन, ए एस सी को शारीरिक योग्यता में एस 1 एच 1 ए। पी1 ई। श्रेणी में योग्य घोषित किया जाने पर और उनकी भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में उपस्थिति दर्ज कराने पर, उन्हें नियमित सेना में (स्थाई आयोग) लै. का पद दिनांक 14 मार्च 2006 से प्रदान किया जाता है। उनकी वरिष्ठता उनके 117 नियमित पाठ्यक्रम (117 रेगुलर कोर्स) के उत्तीर्ण होने की दिनांक 10 दिसम्बर 2005 से ही होगी।”

चन्द्र शेखर

लै. कर्नल

सहायक सेना सचिव 8वीं

सं. 427, दिनांक 30 जुलाई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

शुद्धि पत्र

लै. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति (समय मान) द्वारा

भारत के राजपत्र अधिसूचना नम्बर 28, दिनांक 09-15 जुलाई 2005 (भाग-I, खण्ड-4) (क्रम संख्या 351) के शीर्षक “नियमित सेना, स्थायी कमीशन” एवं उपशीर्षक लै. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान) द्वारा में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है:--

के स्थान पर--आई सी-27223 गुलजार रे

पढ़ा जाए--आई सी-27223 गुलजार राय

भारत के राजपत्र अधिसूचना नम्बर 35 दिनांक 02-08 सितम्बर 2006 (भाग-1, खण्ड-4) (क्रम संख्या 435) के शीर्षक “नियमित सेना, स्थायी कमीशन” एवं उपशीर्षक “लै. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)” में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है:--

के स्थान पर--आई सी-36265 अजीत सक्सेना, आर्टी

पढ़ा जाए--आई सी-35265 अजीत सक्सेना, आर्टी

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस-8ए

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th August 2007

No. 410, dated 25th July 2007.—The President is pleased to appoint Shri Surbir Singh Payal as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A.K. Antony) in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- with effect from the forenoon of 25th October, 2006 till the Minister demits Office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Sita Ram, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 10.07.2007 (FN) for a period upto 31.12.2007 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) the ad-hoc appointments shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' grade of CSS;
- (ii) the ad-hoc Section Officers will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officers through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

The President is pleased to appoint Shri Roop Lal, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 10.07.2007 (FN) for a period upto 31.12.2007 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) the ad-hoc appointments shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' grade of CSS;
- (ii) the ad-hoc Section Officers will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officers through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

SK DEB
Under Secy

(ARMY BRANCH)

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERS BRANCH

No. 411, dated 27th July 2007.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

To be Nb Sub (Religious Teachers)

Phanindra Bhushan Mishra (JC-760136A), 26 Nov 2005

Hernant Kumar Tiwari (JC-760137A), 26 Nov 2005

Hausila Prasad Mishra (JC-760138L), 26 Nov 2005

Ajaya Prakash Mishra (JC-760139N), 26 Nov 2005

Praduman Upadhyay (JC-760140A), 26 Nov 2005

NK KASHMIRA
Under Secy.

No. 412, dated 30th July 2007.—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) the undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Mar 2007, on relinquishing their SSC wef 02 Mar 2007:—

Name, SS No., IC No. and Arms/Services

Prem Singh Bist (SS-39529), (IC-65533W), Arty

Pankaj Maithani (SS-39530), (IC-65534Y), Mech. Inf

Ashwani Kumar (SS-39531), (IC-65535F), Arty

Prashant Jotiba Mane (SS-39532), (IC-65536K), AC

Amit Mehta (SS-39533), (IC-65537M), Inf

Zorawar Singh (SS-39534), (IC-65538P), Inf

Suresh Kumar Pandit (SS-39538), (IC-65539X), Engrs

Longjam Jimkelly Meetei (SS-39539), (IC-65540M), Inf

Sandeep K Thapa (SS-39540), (IC-65541P), EME

Aditya Wali (SS-39541), (IC-65542X), Inf

Fernandes Johny Rocky (SS-39542), (IC-65543A), Int

Deepak V Sharma (SS-39546), (IC-65544H), AOC

Ajit Kumar Rajguru Misra (SS-39549), (IC-65545L), Inf

Kaushik Tarun Mahesh (SS-39550), (IC-65546N), AC

Arun Dev Singh Josrotia (SS-39551), (IC-65547W), Inf

Ramit Chauhan (SS-39552), (IC-65548Y), Sigs

Pratap Ranjan Mohanty (SS-39554), (IC-65549F), Inf

Mridul Mishra (SS-39556), (IC-65550W), Inf

Manjeet Sangwan (SS-39557), (IC-65551Y), ASC

Vishal Singh Sanga (SS-39558), (IC-65552F), Mech Inf

Akshay Kumar (SS-39560), (IC-65553K), Arty

Aditya Singh Rathore (SS-39562), (IC-65555P), AC

Shivinder Pratap Singh Kanwar (SS-39563), (IC-65556X),

Inf

Arthur Agay Foning (SS-39564), (IC-65557A), Inf

Anand (SS-39565), (IC-65558H), EME

Bhanu Pratap Singh (SS-39567), (IC-65559L), AOC
 Prem Kumar Tomar (SS-39568), (IC-65560A), Sigs
 Brijendra Singh B Shekhawat (SS-39570), (IC-65561H),
 AC
 Sugandhit Vikas Bali (SS-39572), (IC-65562L), Engrs
 Sherap Dorjee Bhutia (SS-39573), (IC-65563N), Inf
 Amarinder Brar (SS-39578), (IC-65565Y), AC
 Partha Pratim Dutta (SS-39579), (IC-65566F), Engrs
 Vivek Chaudhary (SS-39581), (IC-65567K), Arty
 Jadhav Santosh Kumar Rangrao (SS-39582), (IC-65568M),
 Inf
 Jadhav Mahesh Vaishnu (SS-39583), (IC-65569P), AC
 Karan Vasishth (SS-39584), (IC-65570K), Inf
 Rohit Chauhan (SS-39585), (IC-65571M), Inf
 Arindam Bardhan (SS-39586), (IC-65572P), Inf
 Sidaray Patil (SS-39587), (IC-65573X), Engrs
 Sunil Kumar (SS-39588), (IC-65574A), Mech Inf
 Virmani Manu Chandermohan (SS-39591), (IC-65577N),
 Inf
 Hemant Lohan (SS-39592), (IC-65578W), Arty
 Rajiv Ranjan Thakur (SS-39595), (IC-65579Y), Sigs
 M Babu (SS-39597), (IC-65580N), Inf
 Krishna Kumar Charan (SS-39599), (IC-65581W), Arty
 Imitiaz Mansuri (SS-39601), (IC-65583F), AAD
 Dinesh Singh Bhandari (SS-39602), (IC-65584K), EME
 Sachin Sharma (SS-39603), (IC-65585M), AOC
 Amardeep Yadav (SS-39604), (IC-65586P), Mech Inf
 Vikas Khanna (SS-39609), (IC-65588A), Arty
 DIG Vijay Singh Shekhawat (SS-39611), (IC-65589H), EME
 Mishra Rahul Bal (SS-39612), (IC-65590X), Inf
 Biju Krishan (SS-39613), (IC-65591A), Arty
 Ramandeep Sandhu (SS-39614), (IC-65592H), AC
 Vikas Ramachandra Patil (Ghare) (SS-39617), (IC-65593L),
 Sigs
 Pawan Kumar Uniyal (SS-39619), (IC-65594N), Inf
 Sukhwant Singh Dhindsa (SS-39620), (IC-65595W), Inf
 Rohit Solanki (SS-39621), (IC-65596Y), Inf
 Birendra Kumar Pushkar (SS-39623), (IC-65597F), Arty
 Vikram Singh Bora (SS-39627), (IC-65598K), Inf
 MD Anwaaruddin Sheriff (SS-39628), (IC-65599M), Inf
 Dadal Kaushik (SS-39629), (IC-65600W), AAD

MV Vipin (SS-39631), (IC-65601Y), ASC
 Mahendra Kumar Joshi (SS-39634), (IC-65603K), ASC
 Bisht Abhay Bhuwan Chandra (SS-39636), (IC-65604M),
 AOC
 Neeraj Kumar (SS-39637), (IC-65605P), Inf
 Rajiv Menon (SS-39640), (IC-65606X), Inf
 Deepu K (SS-39641), (IC-65607A), Inf
 Shiv Kumar (SS-39642), (IC-65608H), EME
 Saurabh Rawat (SS-39643), (IC-65609L), Inf
 Ajay Kumar (SS-39645), (IC-65610A), Inf
 Thongbami Dijen Singh (SS-39652), (IC-65614W), Inf
 Vikrant Mankotia (SS-39658), (IC-65617K), EME
 Ramesh Kumar (SS-39661), (IC-65618M), Inf
 Paishal Manocha (SS-39664), (IC-65619P), Inf
 Prashant Jhala (SS-39667), (IC-65621M), Inf
 Asif Abbas (SS-39668), (IC-65622P), Inf
 Martand Misra (SS-39669), (IC-65623X), Arty
 Dinesh Singh Thakur (SS-39670), (IC-65624A), Inf
 Gajender Singh Shekhawat (SS-39671), (IC-65625H), Inf
 Vinod Joshi (SS-39672), (IC-65626L), Inf
 Divya Mani Shukla (SS-39674), (IC-65627N), Engrs
 Shailendra Singh Shekhawat (SS-39675), (IC-65628W), AC
 Anurag Sharma (SS-39676), (IC-65629Y), Sigs
 Siddharth Virmani (SS-39678), (IC-65630N), Sigs
 Man Singh (SS-39679), (IC-65631W), Engrs
 Fakir Abbas (SS-39681), (IC-65632Y), AC
 Vishwas P (SS-39682), (IC-65633F), Engrs
 Madhvendra Singh (SS-39683), (IC-65634K), EME
 Mayank Tiwari (SS-39685), (IC-65636P), Mech Inf
 Sanjeet S Giani (SS-39686), (IC-65637X), Inf
 Vikas Tyagi (SS-39690), (IC-65638A), ASC
 Aditya Kapoor (SS-39693), (IC-65639H), AC
 (b) the date of seniority in respect of above mentioned
 officers will be as follows:—
 (i) The Date for increments of Pay—02 Mar 2002
 (ii) The Date for promotion —02 Nov 2002
 (c) The Inter-se-seniority of the above mentioned Short
 Service Commissioned Officers granted Permanent
 Commission after 5 years of service will remain same as
 allocated in the GN for grant of Short Service Commission.

MLN SRAVAN KUMAR
 Col
 Col MS-7

No. 413, dated 27th July 2007.—The President is pleased to make the following promotions wef the date shown against their names:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi-Substantive Major

Capt Bijay Kumar Sahu (VS-1041), RVC, 16 Dec 2004
 Capt N.K. Walrnik (VS-1046P), RVC, 16 Dec 2004
 Capt Bhupender Singh (VS-1047X), RVC, 16 Dec 2004
 Capt KS Grewal (VS-1050X), RVC, 11 Dec 2005
 Capt Deepak Bhatia (VS-1051A), RVC, 11 Dec 2005
 Capt HS Dhillon (VS-1053L), RVC, 11 Dec 2005
 Capt Vinod Kumar (VS-1058K), RVC, 11 Dec 2005
 Capt Shafeeq R Khan (VS-1070L), RVC, 10 Mar 2005

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILERY

To be Substantive Nb Sub

BHM Jai Ram (No. 14485498K now JC-270374X), 01 Mar 2007/01 Sep 2006*
 Hav Vijay Shankar Pandey (No. 14364047F now JC-270375A), 11 Jan 2007/01 Nov 2006*
 Hav Prasanth K. (No. 15111987X now JC-270336H), 25 Jan 2007/01 Nov 2006*
 Hav Ningappa Ronad (No. 14365023K now JC-270377L), 04 Jan 2007/01 Nov 2006*
 Hav Manoj Kumar Verma (No. 15122314H now JC-270378N), 13 Jan 2007/27 Nov 2006*
 Hav Satheesan TR (No. 14371595P now JC-270379W), 09 Feb 2007/30 Nov 2006*
 Hav Mahavir Yadav (No. 14482614W now JC-270380L), 14 Feb 2007/01 Jan 2007*
 Hav Vijay Singh (No. 14487437L now JC-270381N), 13 Mar 2007/01 Jan 2007*
 Hav Hem Raj (No. 14396432Y now JC-270382W), 03 Mar 2007/28 Jan 2007*
 Hav Chhote Lal (No. 7773375P now JC-270383Y), 04 Mar 2007/31 Jan 2007*
 Hav Jai Singh (No. 14472377K now JC-270384F), 27 Feb 2007/01 Feb 2007*
 BHM Gandla Sowndara Raja (No. 14486686X now JC-270385K), 15 Mar 2007/01 Feb 2007*
 BHM Prabhakar Arjun Pawar (No. 14478537P now JC-270386M), 28 Mar 2007/04 Feb 2007*
 Hav Eirendra Kumar (No. 14391781Y now JC-270387P), 07 Mar 2007/13 Feb 2007*

Hav Prithvi Raj Pandey (No. 14390152P now JC-270388X), 12 Mar 2007/01 Mar 2007*

Hav Chandrappa HN (No. 14369042M now JC-270389A), 18 Mar 2007/01 Mar 2007*

RHM Divakara MJ (No. 15121598L now JC-270416Y), 02 Aug 2006/23 Jun 2006*

Hav Swinder Singh (No. 14495042Y now JC-270417F), 15 Jul 2006/01 Jul 2006*

Hav Rishi Singh (No. 14493536K now JC-270418K), 20 Aug 2006/01 Aug 2006*

Hav Bhagwant Singh (No. 14488060Y now JC-270419M), 01 Sep 2006

RHM Pardeep Kumar (No. 14415840F now JC-270420F), 27 Jan 2007/26 Oct 2006*

RHM V Prasanna Kumar (No. 15121597H now JC-270421K), 05 Jan 2007/26 Oct 2006*

RHM Khamkar Ravindra Balkrishna (No. 14413185P now JC-270422M), 05 Jan 2007/26 Oct 2006*

BHM Gulzar Singh (No. 14486252X now JC-270423P), 20 Jan 2007/01 Jan 2007*

Hav Mahavir Prasad (No. 15106848K now JC-270424X), 07 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Gurmel Singh (No. 15100054H now JC-270425A), 13 Feb 2007/01 Feb 2007*

Hav Dharamjit Singh (No. 14391814Y now JC-270426H), 01 Feb 2007

Hav V Ranganathan (No. 14383702K now JC-270427L), 12 Feb 2007/01 Feb 2006*

Hav Gurbachan Singh (No. 14385592Y now JC-270428N), 19 Feb 2007/01 Feb 2007*

Hav Gurmeet Singh (No. 15113503L now JC-270429W), 26 Mar 2007/01 Mar 2007*

*(Gtd Seniority wef)

PIONEER CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav/GD Surender Rai (No. 8029049W now JC-829371M), 26 Dec 2006*

Hav/GD Ram Niwas Pankaj (No. 8030603H now JC-829372P), 01 Feb 2007

Hav/GD Jagannath Sahoo (No. 8030629X now JC-829373X), 01 Feb 2007

Hav/GD Kishan Singh (No. 8029664N now JC-829374A), 01 Feb 2007

Hav/GD Shahaji Shankar Koli (No. 8029690P now JC-829375H), 01 Feb 2007

Hav/GD Prahlad Meena (No. 8029779K now JC-829376L), 01 Apr 2007

Hav/GD Om Prakash Singh (No. 8030648H now JC-829377N), 02 Apr 2007#

Hav/GD Dilip Kumar Thakur (No. 8030762A now JC-829378W), 02 Apr 2007#

Hav/GD Anand Bahadur (No. 8029887L now JC-829379Y), 01 May 2007

*[Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances]

#[Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances]

P RAMA SASTRY
Under Secy.

No. 414, dated 26th July 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Chhering Mutup (JC-175145F), 01 Dec 2006

Sub Gurdev Singh (JC-184933M), 01 Jun 2007

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Mohinder Singh (TJ-2630Y), 01 Nov 2006

Nb Sub Prem Chand (JC-211652H), 01 Nov 2006

Nb Sub Gyan Bahadur Thapa (JC-612074Y), 01 Jan 2007

Nb Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-212813N), 01 Feb 2007

Nb Sub Kewal Dutt, SM (JC-428203N), 01 Mar 2007

Nb Sub Om Prakash (JC-236196H), 01 Mar 2007

Nb Sub Hardin Ram (JC-448304H), 01 Apr 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-841007A), 01 Jun 2007

Nb Sub Govind Singh Bora (JC-841009L), 01 Jun 2007

Nb Sub Tirath Singh Rawat (JC-841011H), 01 Jun 2007

Nb Sub C Joseph (JC-841029Y), 01 Jun 2007

Nb Sub Des Raj (JC-841014W), 01 Jun 2007

Nb Sub Ravindranath Patil (JC-841032Y), 01 Jun 2007

Nb Sub Ranjeet Singh (JC-171866N), 01 Jun 2007

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub/Clk Md Samsul Alam (JC-841455M), 01 May 2007

Nb Sub/Clk Anant Ram (JC-841457X), 01 Jun 2007

Nb Sub/Clk Onkar Saran Rathi (JC-841458A), 01 Jun 2007

PRADEEP KUMAR
Under Secy.

No. 415, dated 27th July 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subedar Major (RT) (Pandit)

Sub(RT) Jit Ram Bhatt (JC-120472M), 02 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/RT Gurmeet Singh (JC-152325X), 01 May 2007

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 416, dated 27th July 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Substantive Subedar Major

Sub Maj/Clk GD Jayarajan KK (JC-723478W), 01 Jan 2007

Sub Maj/Clk GD Surendra Nath Mahanta (JC-723154L), 01 Jan 2007

Sub Maj/Clk GD Raman Kumar Sharma (JC-723474A), 01 Jan 2007

Sub Maj/Clk Prov Ramesh Singh Thakur (JC-723482Y), 01 Feb 2007

Sub Maj/SKT MT Bankur Rami Reddy (JC-723517K), 01 Feb 2007

Sub Maj/DVR MT Ramji Choubey (JC-725471L), 09 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj/SKT MT Damodaran V (JC-723041H), 12 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj/SKT AMN Bikash Ranjan Ghosh (JC-723074N), 15 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj/Clk GD Kameer Chand Rana (JC-723410P), 14 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj/SKT AMN Harbans Singh (JC-723257K), 02 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj/Clk GD Sree Kumaran K (JC-723486P), 16 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj/SKT AMN Shambhu Nath Roy (JC-723311M), 01 May 2007

Sub Maj/SH GD Banyeswar Biswas (JC-725252K), 01 May 2007

To be Sub Maj Religious Teacher (Pandit)

Substantive Sub Maj/Pandit Shiv Kumar Panday (JC-1100765K), 01 Dec 2006

Substantive Sub Maj/Pandit Rama Shankar Jha (JC-110766M), 29 Dec 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allces)

To be Sub Religious Teacher (Pandit)

Substantive Sub/Pandit Ghan Shyam (JC-723149A), 01 Dec 2006

Substantive Sub/Pandit Ram Nath Mishra (JC-723147P), 01 Dec 2006

Substantive Sub/Pandit Guru Prasad Pathak (JC-723269Y), 01 Dec 2006

Substantive Sub/Pandit Ramakant Mishra (JC-723270N), 01 Dec 2006

To be Naib Sub Religious Teacher (Pandit)

JC-Naya Naib Sub/Pandit Sailendra Kumar Panday (JC-723149A), 02 Dec 2006

To be Substantive Sub

Sub/SH GD Dudheshwar Pathak (JC-726316W) 07 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT AMN Anumanta Singh (JC-725095H) 01 Jan 2007

Sub/Clk S Cont Jagsir Singh (JC-725595A) 01 Jan 2007

Sub/Clks S Prov Kripa Shankar Mishra (JC-725540W) 01 Jan 2007

Sub/Clk Cont Harbinder Singh (JC-725630X) 01 Jan 2007

Sub/Clk S Prov Karan Singh (JC-725585W) 01 Feb 2007

Sub/Clk S Cont Balvir Singh (JC-725629H) 07 Feb 2007

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT MT Alok Kumar Mukhopadhaya (JC-725303M) 01 Feb 2007

Sub/SKT AMN Akolkar Bharat Radhakisan (JC-725150N) 01 Feb 2007

Sub/SKT AMN Bikkad Shrirang Shankar (JC-725151W) 01 Feb 2007

Sub/SKT AMN Surinder Singh Gill (JC-725133N) 01 Feb 2007

Sub/SKT GS&C K Purushothaman (JC-725176H) 01 Feb 2007

Sub/SKT GS&C Pramod Prabhakar (JC-725156P) 01 Feb 2007

Sub/Clk S Cont Tersim Singh Fazal (JC-725633L) 01 Feb 2007

Sub/Clk S Cont Sat Pal Chonkria (JC-725589M) 17 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/Clk S Prov Didar Singh (JC-725590F) 01 Jan 2007

Sub/SKT MT Ajay Kumar Yadav (JC-725192A) 06 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/AT Krishna Halagekar (JC-724596W) 01 Feb 2007

Sub/SKT GS&C Ramji Ram Gupta (JC-725174X) 01 Feb 2007

Sub/SKT AMN Hanvate Babulal Bhao Singh (JC-725149Y) 01 Feb 2007

Sub/SKT AMN Rajendra Kumar Mishra (JC-725148W) 07 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT AMN K Sanjay Kishan Rao (JC-725131H) 01 Feb 2007

Sub/SKT MT Jagat Pal Yadav (JC-725194L) 07 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT GS&C Man Singh (JC-725096L) 12 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/Clk S Cont Parmod Singh Rana (JC-725545P) 01 Jan 2007

- Sub/SKT GS&C MD Murtuza (JC-724539P) 05 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/SKT GS&C A Muruga Samy (JC-725207X) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Dilip Kumar Singh (JC-725220F) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Balwant Singh (JC-725155M) 01 Feb 2007
- Sub/Clk S Cont Jai Bhagawan (JC-725596H) 01 Feb 2007
- Sub/AT Rabindra prasad Thakur (JC-724599K) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Cont Jagdish Chand (JC-725593P) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Cont Jagan Nath (JC-725543K) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Prov Ram Karan Singh (JC-725551H) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Cont Rangiram (JC-725550A) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Pro V Rakesh Kumar (JC-725628A) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Prov Ragavender Singh Yadav (JC-725678L) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Prov Venu Gopala Pillai VN (JC-725597L) 01 Feb 2007
- Sub/Clk S Prov Gabar Singh Rawat (JC-725538Y) 07 Feb 2007
- (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/Clk S Cont Om Prakash Kapoor (JC-725591K) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Prov Harbhajan Singh (JC-725599W) 01 Feb 2007
- Sub/Clk S Cont Prafulla Daurah (JC-725541Y) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Cont Mohan Singh kathat (JC-725587F) 01 Jan 2007
- Sub/Clk S Cont Kewal Singh (JC-725598N) 01 Feb 2007
- Sub/Clk S Cont Zainul Abidin Khan (JC-725631A) 01 Feb 2007
- Sub/Clk S Cont Dharam Pal (JC-725588K) 03 Jan 2007
- (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/Clk S Cont Jit Kumar (JC-725594X) 28 Jan 2007
- (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/Clk S Prov Suresh Kumar Kaushik (JC-725585W) 01 Feb 2007
- (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/Clk S Prov Iqbal Singh (JC-725635W) 01 Mar 2007
- Sub/SKT MT Hari Krishan (JC-725172M) 01 Jan 2007
- Sub/SKT AMN Shelke Baban Sonu (JC-725097N) 01 Jan 2007
- Sub/SKT GS&C Radha Krishna (JC-725132L) 01 Feb 2007
- Sub/SKT AMN Bhagwati Prasad (JC-725147N) 01 Feb 2007
- Sub/SKT AMN Aute Narayan Rao Saheb (JC-725152Y) 06 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/SKT GS&C K Chandra Bada Panda (JC-725243H) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Bahadur Singh (JC-725212H) 01 Mar 2007
- Sub/SKT GS&C Ramesh Kumar (JC-725208A) 01 Mar 2007
- Sub/SKT GS&C Venkata Chalam R (JC-725175A) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Gulshan Kumar (JC-725209H) 01 Mar 2007
- Sub/SH GD Promod Kumar Chaudhary (JC-726342X) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Srish Kumar Malaviya (JC-725213L) 01 Mar 2007
- Sub/SKT GS&C Raj Singh (JC-725210X) 03 Mar 2007
- (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/Clk S Prov Ashok Kumar Chambyal (JC-725642M) 01 Mar 2007
- Sub/Clk S Cont Gurbax Singh Sourat (JC-725638K) 01 Mar 2007
- Sub/Clk S Cont Bal Kishan Yadav (JC-725636Y) 08 Mar 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/SKT GS&C Goind Chandra Dash (JC-725244L) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Nityananda Lenka (JC-725179W) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C A Lucas (JC-725153F) 01 Feb 2007
- Sub/SKT GS&C Jagdish Prasad Gurjar (JC-725130A) 19 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)
- Sub/Clk S Prov Shesh Ram (JC-725586Y) 01 Jan 2007

Sub/Clk S Prov Somvir Singh (JC-725539F) 01 Mar 2007
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT GS&C Subash Chand (JC-725260H) 24 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT GS&C Satya Prakash Singh (JC-725250Y) 07 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT GS&C Prem Kumar Tiwari (JC-725222M) 01 Mar 2007

Sub/SKT GS&C Ushakanta Sabat (JC-725245N) 01 Mar 2007

Sub/SKT GS&C S Chandra Pattanayak (JC-725302K) 24 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/Clk S Prov Birender Singh Chauhan (JC-725634N) 01 Mar 2007

Sub/Clk S Prov Kishori Lal (JC-725641K) 21 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/Clk S Prov Ram Prakash (JC-725639M) 01 Mar 2007

Sub/Clk S Prov Surjit Singh (JC-725637F) 01 Mar 2007

Sub/DVR MT Kalaktar Prasad (JC-726433F) 01 Feb 2007

Sub/SKT AMN Brij Kishor Tripathi (JC-725271P) 05 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SKT GS&C Ram Awadh Singh (JC-725246W) 01 Mar 2007

Sub/Clk S Prov Ramesh Singh Jumwal (JC-725640F) 01 Mar 2007

Sub/Clk S Prov Dalbara Singh (JC-725714L) 01 Mar 2007

Sub/SH GD Jagtap baboo Jaiwant Rao (JC-726555L) 01 May 2007

Sub/SH GD Subhash Singh (JC-726518X) 01 May 2007

Sub/SH GD Banarsi Das (JC-726517P) 01 May 2007

Sub/SH GD Rajvir Singh (JC-726467P) 07 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SH GD Nand Kishore Thakur (JC-726487H) 01 May 2007

Sub/SH GD Raghunath Ram (JC-726460L) 01 May 2007

Sub/DVR MT Rajbir Singh (JC-726579P) 01 May 2007

Sub/DVR SPL Nandlal Bhagat (JC-726489N) 01 May 2007

Sub/SH GD Mane Bhimrao Shivappa (JC-726442H) 01 May 2007

Sub/SKT GS&C Surinder Pal (JC-725221K) 01 Mar 2007

Sub/SKT GS&C Rajesh Kumar Singh (JC-725258L) 01 Mar 2007

Sub/SKT GS&C Devi Ram (JC-725177L) 01 Feb 2007

Sub/Clk S Cont Sudershan Singh (JC-725592M) 01 Jan 2007

Sub/SH GD Som Raj (JC-726443L) 01 May 2007

Sub/SH GD Premchamling Rai (JC-726589Y) 01 May 2007

Sub/DVR MT Rama Shankar Singh (JC-726533M) 19 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/SH GD Satender Mohan (JC-726457L) 01 May 2007

Sub/DVR MT Ambhore Eknath Daulat (JC-726452M) 01 May 2007

Sub/SKT GS&C Shyam Vir Singh (JC-725259N) 01 Mar 2007*

Sub/SKT GS&C Tanji Sopan Vhanale (JC-725091M) 22 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav/Clk GD Sahaj Ram Yadav (No. 6919252H now JC-727386F) 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Aramughan V (No. 6919502Y now JC-727387K) 01 Jan 2007

Hav/SKT MT Rajbir Singh (No. 6920856Y now JC-727388M) 13 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT SIG Girish Babu Yadav (No. 6921660M now JC-727389P) 11 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Amarjit Singh (No. 6929865W now JC-727390K) 01 Feb 2007

Hav/AT Narsi Ram (No. 6931391Y now JC-727391M) 06 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Jayanta Narayan Acharjee (No. 6920471W now JC-727392P) 18 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav SKT MT Sukhdeo Yadav (No. 6920524K now JC-727393X) 23 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT GS&C Tuser Kumar Ghos (No. 6920595L now JC-727394A) 01 Feb 2007

Hav/SKT SK Satya Prakash Sharma (No. 6920682Y now JC-727395H) 27 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav SKT MT Pratipal Singh (No. 6921013M now JC-727396L) 01 Feb 2007

Hav/SKT SIG Jaindra Prasad (No. 6921634L now JC-727398W) 01 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Puran Singh Bisht (No. 6921702N now JC-727399Y) 19 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT GS&C A Ravi Chandran (No. 6928126X now JC-727400H) 23 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav /Clk S Cont Ramvir Singh (No. 6919621P now JC-727401L) 01 Mar 2007

Hav/Clk S Prov Anand Chandra Behra (No. 6919625L now JC-727402N) 03 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Khageswar Swain (No. 6919638H now JC-727403W) 01 Mar 2007

Hav/SKT SIG Udayvir Singh (No. 6920651Y now JC-727404Y) 01 Mar 2007

Hav/SKT AMN Rishi Pal (No. 6920827Y now JC-727405F) 01 Mar 2007

Hav/SKT GS&C Ashwant Kumar (No. 6920899H now JC-727406K) 01 Mar 2007

Hav/SKT GS&C Ashwani Kumar Double (No. 6920899H now JC-727408K) 01 Mar 2007

Hav/SKT GS&C Mohan Singh Mal (No. 6921020H now JC-727407M) 01 Mar 2007

Hav/SKT SIG Sagaya Raj T. (No. 6921703W now JC-727408P) 01 Mar 2007

Hav/SKT MT Abbay Pratap Singh (No. 6921714H now JC-727409X) 01 Mar 2007

Hav/SKT GS&C Ranjeet Singh (No. 6927320A now JC-727410M) 11 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Krishna Pada Das (No. 6918691F now JC-727411P) 06 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Ramakable Pahot (No. 6918700X now JC-727412X) 01 Mar 2007

Hav/SH GD Nandu Saw (No. 6918704N now JC-727413A) 01 Mar 2007

Hav/SH GD Kanihya Lal (No. 6918709M now JC-727414H) 01 Mar 2007

Hav/SH GD Jitendra Singha (No. 6918733H now JC-727415L) 01 Mar 2007

Hav/Tailor (U) Satya Pal (No. 6925882Y now JC-727416N) 01 Mar 2007

Hav/AT Tapan Kumar Saha (No. 6925566A now JC-727417W) 01 Apr 2007

Hav/Clk S Cont Prajapati Dilip Bhai (No. 6919652P now JC-727418Y) 01 Apr 2007

Hav/Clk S Cont Bauchkar Babu (No. 691966P now JC-727419F) 01 Apr 2007

Hav/Clk GD Ram Nath (No. 6919682M now JC-724420W) 01 Apr 2007

Hav/Clk S Prov Sant Bax Singh (No. 6919700K now JC-727421Y) 01 Apr 2007

Hav/Clk GD GR Amalaking (No. 6919702P now JC-727422F) 01 Apr 2007

Hav/Clk S Prov Sasane Bhaa Rao (No. 6919710N now JC-727423K) 01 Apr 2007

Hav/SKT SIG Madhu Sudhanan M (No. 6921709X now JC-727424M) 01 Apr 2007

Hav/SKT MT Shiv Pal Singh (No. 6921716N now JC-727425P) 01 Apr 2007

Hav/SKT MT Naina Ram Chaudhary (No. 6921744A now JC-727426X) 29 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT M Kantparasha Ram (No. 6921728H now JC-727427A) 01 Apr 2007

Hav/SKT MT Khushi Ram (No. 6921746L now JC-727428H) 01 Apr 2007

Hav/SKT MT Vinod Prasad (No. 6921747N now JC-727429L) 01 Apr 2007

Hav/DVR MT Harbans Singh (No. 6919066M now JC-727430A), 01 Apr 2007

Hav/SH GD Bhupen Kumar Das (No. 6918740Y now JC-727431H), 01 Apr 2007

Hav/SH GD Ishawar Chand Singh (No. 6918783N now JC-727432L), 01 Apr 2007

Hav/SH GD Jhak Bahadur Pun (No. 6918820W now JC-727433N), 01 Apr 2007

Hav/Clk GD Pushkar Singh Bisht (No. 6919594W now JC-727434W), 01 Mar 2007

Hav/SKT MT V Kappu Samy (No. 6921212A now JC-727334L), 26 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Pravat Kumar Moha (No. 6919941K now JC-727335N), 30 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Raendra Singh (No. 6930804L now JC-727336W), 01 Dec 2006

Hav/Clk GD Jayaprakash KC (No. 6919175Y now JC-727337Y), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Balbir Singh Yada (No. 6919183X now JC-727338F), 09 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Liladhar Swamy (No. 6919189Y now JC-727339K), 31 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Phakir Shoukat (No. 6919194K now JC-727340Y), 12 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Chandra Bhushan (No. 6921635N now JC-727341F), 01 Dec 2006

Hav/SHT Devendra Ram Tripathi (No. 6918662M now JC-727342K), 19 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Subash Chandra Pradhan (No. 6918596P now JC-727343M), 15 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Ekawade Himat Rao Babu (No. 6917804M now JC-727344P), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Yodendra Nath Ram (No. 6919300X now JC-727345X), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Jagmohan Puri Goswami (No. 6919361P now JC-727310F), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Prov Joginder Singh (No. 6919366N now JC-727346A), 19 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Bhagwan Dass (No. 6919379L now JC-727347H), 21 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Prov Namdev Patil (No. 6919420W now JC-727348L), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont S Kanthaiah (No. 6919460X now JC-727349N), 09 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Dalip Singh (No. 6921649N now JC-727350H), 25 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT SIG Umesh Chandra (No. 6921658P now JC-727351L), 01 Jan 2007

Hav/SKT SIG Raj Kumar (No. 6921663A now JC-727352N), 16 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Ram Kumar Singh (No. 6918070H now JC-727353W), 01 Jan 2007

Hav Tailor U Baldev Singh (No. 6922391X now JC-727354Y), 01 Jan 2007

Hav/Clk GD Nasib Singh (No. 6919365L now JC-727355F), 01 Feb 2007

Hav/Clk S Cont Gauri Shanker SI (No. 6919583W now JC-727356K), 07 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Ashok Kumar Amanta (No. 6919578Y now JC-727357M), 01 Feb 2007

Hav/Clk S Cont Thulasi Kumar A (No. 6919605X now JC-727358P), 01 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Jagdish B (No. 6919606A now JC-727359X), 01 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Rajeev Ranjan Dubey (No. 6920206A now JC-727360M), 14 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Ram Pratap (No. 6920659L now JC-727361P), 01 Feb 2007

Hav/SKT GS&C Mahipal (No. 6920883X now JC-727362X), 23 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Ishwar Singh (No. 6920942Y now JC-727363A), 14 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT AMN Mahender Singh (No. 6921357L now JC-727364H), 01 Feb 2007

Hav/SKT SIG Onkar Singh (No. 6921669F now JC-727365L), 01 Feb 2007

Hav/SKT SIG N Madhu Mohanan (No. 6921681H now JC-727366N), 21 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT SIG Nitranjan (No. 6921683N now JC-727367W), 21 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Rachhpal Singh (No. 6927209W now JC-727388Y), 01 Feb 2007

Hav/SKT AMN Safi Mohd Khan (No. 6927845K now JC-727369F), 28 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Jagesh Kumar Tyagi (No. 6928066N now JC-727370W), 01 Feb 2007

Hav/SKT GS&C Subash Chander (No. 6928129L now JC-727371Y), 01 Feb 2007

Hav/SKT MT Inderjeet Singh (No. 6929483M now JC-727372F), 27 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Hanumant Parsram Patil (No. 6918669W now JC-727373K), 01 Feb 2007

Hav/SH GD Nityananda Halder (No. 6918689K now JC-727374M), 01 Feb 2007

Hav/Clk GD Girija Sankar Naik (No. 6919591H now JC-727375P), 01 Mar 2007

Hav/Clk GD Bankimo Chandra Behra (No. 6919598M now JC-727376X), 01 Mar 2007

Hav/Clk GD Priyadarsi Acharya (No. 6919601F now JC-727377A), 01 Mar 2007

Hav/Clk GD Ananta Mohanty (No. 6919622X now JC-727378H), 01 Mar 2007

Hav/SH GD Krishna Kumar Singh (No. 6918703L now JC-727379L), 01 Mar 2007

Hav/SKT GS&C Ram Dhanee Singh (No. 6920608X now JC-727380A), 01 Mar 2007

Hav/SKT SIG Jagdish Chand (No. 6920720K now JC-727381H), 01 Mar 2007

Hav/SKT MT Tapan Kanti Nath (No. 6921087F now JC-727382L), 01 Mar 2007

Hav/SKT AMN Mridul Bora (No. 6921467A now JC-727383N), 01 Mar 2007

Hav/SKT AMN Asit Kumar Das (No. 6921488W now JC-727384W), 01 Mar 2007

Hav/SKT MT John CS (No. 6921705F now JC-727385Y), 01 Mar 2007

Hav/SKT AMN Inder Pal (No. 6921358N now JC-727302H), 30 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Mahendra Singh Yadav (No. 6919206N now JC-727303L), 25 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Main Pal (No. 6929864N now JC-727304N), 22 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Pratheepan SR (No. 6930853N now JC-727305W), 20 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Amir Pal Singh (No. 6919167A now JC-727306Y), 15 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Bhagat Bhim Rao (No. 6919179P now JC-727307F), 12 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Dhumal Ramchandra Rao (No. 6919215P now JC-727308K), 10 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Prov Jai Chand (No. 6919302H now JC-727309M), 16 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Parath Singh Chauhan (No. 6919403W now JC-727311K), 24 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Khavare Laxman (No. 6919418Y now JC-727312M), 25 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Malleshappa Dodamani (No. 6919421Y now JC-727313P), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Prov Mahendra Prasad (No. 6919560H now JC-727314X), 11 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT AMN Appa Saheb (No. 6921495M now JC-727315A), 19 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Radha Krishnan R (No. 6921627P now JC-727316H), 17 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Raipan Lal (No. 6921645X now JC-727317L), 28 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Rajendra Babu (No. 6921655F now JC-727318N), 25 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT SIG Gopal Prasad (No. 6921659X now JC-727319W), 01 Jan 2007

Hav/SKT WEP Ashok Kumar Sharma (No. 6921661P now JC-727320L), 14 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT SIG Raghubir Singh (No. 6921667W now JC-727321N), 01 Jan 2007

Hav/SHT Biram Singh (No. 6918365Y now JC-727282A), 16 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Hari Narayan Jat (No. 6918430N now JC-727322W), 16 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Shyam Singh (No. 6918499X now JC-727323Y), 04 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Chandeshwar Prasad (No. 6918464F now JC-727384L), 01 Jan 2007

Hav/SH GD Adya Nath Pradhan (No. 6918504X now JC-727324F), 01 Dec 2006

Hav/SH GD Babulal Lakra (No. 6918600M now JC-727325K), 01 Dec 2006

Hav/SH GD Ugra Sen Bhutia (No. 6918629P now JC-727326M), 01 Jan 2007

Hav/PTR (U) Sudher Prasad Singh (No. 6918399M now JC-727327P), 16 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Ram Narayan Sin (No. 6919565F now JC-727328X), 01 Feb 2007

Hav/Clk GD Brojo Mohan Lakra (No. 6919583K now JC-727329A), 01 Feb 2007

Hav/SKT MT Dalbir Singh Baloria (No. 6926520K now JC-727330P), 01 Feb 2007

Hav/DVR MT Nilendu Jana (No. 6938036K now JC-727331X), 01 Feb 2007

Hav/DVR MT Ramesan A (No. 6941836N now JC-727332A), 01 Feb 2007

Hav/SH GD Bhuwan Chandra Joshi (No. 6918672W now JC-727333H), 01 Feb 2007

Hav/AT S Rusel Raj (No. 6925003A now JC-727249H), 11 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Binod Kumar Jena (No. 6929737Y now JC-727250X), 23 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Dhanna Lal (No. 6919025H now JC-727251A), 01 Oct 2006

Hav/Clk GD Kapil Dev Yadav (No. 6919047F now JC-727252H), 01 Oct 2006

Hav/SKT GS&C Ganjage Janardhan (No. 6921353P now JC-727253L), 01 Oct 2006

Hav/SKT AMN Mahendra Singh (No. 6921362W now JC-727254N), 05 Nov 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT AMN Gopal Singh (No. 6921363Y now JC-727255W), 01 Oct 2006

Hav/SKT AMN Kewal Singh (No. 6921366M now JC-727256Y), 16 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SHT Shri Krishan (No. 6918531L now JC-727257F), 05 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Keshav Prasad (No. 6918476W now JC-727258K), 01 Oct 2006

Hav/SH GD Mukesh Chand (No. 6918477Y now JC-727259M), 01 Oct 2006

Hav/AT Devendra Pratap Singh (No. 6929763A now JC-727260F), 06 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Sanjeev Kumar (No. 6929772X now JC-727261K), 01 Nov 2006

Hav/Clk S Cont Kamal Singh Meena (No. 6919169L now JC-727262M), 01 Nov 2006

Hav/SKT AMN Anand Lal Jaiswan (No. 6921488L now JC-727263P), 05 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Ravindra Koranne (No. 6921491W now JC-727264X), 10 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Bijender Singh (No. 6918493W now JC-727265A), 01 Nov 2006

Hav/SH GD Indra Jit Mandal (No. 6918500F now JC-727266H), 01 Nov 2006

Hav/SHT Janmejaya Muduli (No. 6918659M now JC-727267L), 08 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Praveen Kumar (No. 6919170A now JC-727268N), 26 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Bipin Singh (No. 6919172L now JC-727269W), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Dayanand Rathee (No. 6919173N now JC-727270L), 11 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont H Dinesh Krishna Rao (No. 6919177K now JC-727271N), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Babu Mathew (No. 6919180K now JC-727272W), 22 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Vijaya Raj R (No. 6919182P now JC-727273Y), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Babychan G Edayath (No. 6919184A now JC-727274F), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Vidya Dharan Pilla (No. 6919186L now JC-727275K), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Subedar Yadav (No. 6919187N now JC-727276M), 01 Dec 2006

Hav/Clk S Cont Balwan Singh (No. 6919191W now JC-727277P), 15 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT WEP Ram Singh Kajla (No. 6921600X now JC-727278X), 01 Dec 2006

Hav/SKT WEP Vinod Kumar Yadav (No. 6921616H now JC-727279A), 01 Dec 2006

Hav/SKT WEP Dilawar Singh (No. 6921628X now JC-727280P), 09 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Brinda Lal Sharma (No. 6918348Y now JC-727281X), 01 Dec 2006

Hav/SH GD Janardan Namdeo Lava (No. 6918392H now JC-727283H), 01 Jan 2007

Hav/SH GD Ramesh Chandra Swain (No. 6918630K now JC-727285N), 01 Jan 2007

Hav/SH GD Kashi Nath Behera (No. 6918632P now JC-727288W), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Mukesh Kumar (No. 6919561L now JC-727287Y), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Shegi Reddy Subba (No. 6919210W now JC-727288F), 09 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Jaibir Singh (No. 6919253L now JC-727289K), 01 Jan 2007

Hav/Clk GD Amulya Kumar Panda (No. 6919256Y now JC-727290Y), 04 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Pawar Dayaram (No. 6919257F now JC-727291F), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont R Rama Chandran (No. 6919266H now JC-727292K), 10 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Venkata Samy P (No. 6919269W now JC-727293M), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Prov Shivaji R Dhanve (No. 6919414H now JC-727294P), 03 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Umed Singh (No. 6919440K now JC-727295X) 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont R Selvaraj (No. 6919444A now JC-727296A), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Sasi Kumar Kannipoya (No. 6919489A now JC-727297H), 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Rama Krishnan K (No. 6919490P now JC-727298L), 01 Jan 2007

Hav/Clk GD Arsal Sarkar (No. 6919554P now JC-727299N) 01 Jan 2007

Hav/Clk S Cont Chandar Shekhar (No. 6919562N now JC-727300X), 01 Jan 2007

Hav/SKT SIG Surendra Singh (No. 6921662X now JC-7272301A), 01 Jan 2007

N K KASHMIRA
Under Secy

No. 417, dated 26th Jul 2007—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Substantive Subedar Major (SKT)

Sub Saroj Kanta Swain (JC-691563H), 01 Mar 2007

To be Substantive Subedar (Clk (GD)

Nb Sub Hari Shyam Tiwari (JC-693358A), 01 Apr 2007

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Dev Singh Jeena (JC-693627F), 01 Mar 2007

Nb Sub Nirupam Grahacharya (JC-693786Y), 01 Apr 2007

Nb Sub Shyam Sunder Singh (JC-693787F), 01 Apr 2007

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Awadesh Kumar Mishra (JC-692120N), 01 Apr 2007

R C RATURI
Under Secy

No. 418, dated 30th Jul 2007—The President is to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended vide AI 10/02:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Captain to be Major

Hiteshwar Bhattal (DR-10571M), 23 Feb 2006

L R Gilbert (DR-10572P), 02 Mar 2006

The President is to make the following promotion under AI 37/78 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Capt to be Major

Desai Ajai Premanand (DR-10580N) 31 May 2006

Peter Devadoss (DR-10581W) 17 Jun 2006

Shah Rakesh Jaykrishna (DR-10582Y) 13 Aug 2006

Gaurav Vohra (DR-10583F) 09 Sep 2006

Vishal Gupta (DR-10584K) 12 Sep 2006

The President is to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Capt to be Major

(Ms) Poonam Prakash (DR-10591A), 16 Nov 2006

(Ms) Anita Kapri (DR-10593L), 17 Feb 2007

Avinash Kumar (DR-10594N), 20 Feb 2007

Atul Bali (DR-10553K), 08 Apr 2007

The President is pleased to make the following promotions under AI 15/79, as amended vide AI 11/02:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Substantive Major

Ms Hirini Sirohi (DR-12038W), 26 Feb 2006

Ms Roli Tewari (DR-12057F), 11 Mar 2006

Amrita E George (DR-12040N), 27 Mar 2006

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79, as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Substantive Major

Ms Anu Aghi (DS-12071N), 12 Jan 2007

Narinder Pahwa (DS-12076M), 21 Feb 2007

Ms Sonia Cherian (DS-12077P), 24 Feb 2007

DK TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

No. 419, dated 30th Jul 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

Harinder Singh (MR-03582W), 08 Jan 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2007.

Lt Col/Col (TS) (& equivalent) to be Col (Selection & equivalent)

R K Choudhary (MR-04196W), 23 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Dec 2005

D Mahapatra (MR-05453P), 20 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Jan 2006

BS Rana (MR-05183L), 06 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

Surg Cdr to be Surg Capt (Selection & equivalent)

Surg Capt/(TS) P S Tampi (MR-4260H), (75266), 30 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2006

Surg Capt V S Bedi (MR-05859H), (75313), 30 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Mar 2006

Surg Capt J Chatterjee (MR-04744H), (75291), 26 Jan 2007 with notional Seniority without effect on pay & pension from 03 Oct 2006.

G GRAVINDRANATH

Dy DGAFFMS(P)

No. 420, dated 30th Jul 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

Lt Col R S Samkaria (IC-31010L), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col M Durairaj (IC-35098X), Engrs, 16 Dec 2004

Lt Col R K Jakhar (IC-35508H), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col Jai Prakash (IC-37236M), Inf, 01 May 2005

Lt Col Vinod N R Bari (IC-37426Y), Inf, 01 May 2005

Lt Col Uttam S Parmar (IC-39241W), Arty, 13 Dec 2006

Lt Col B S Rathore (IC-35184H), AAD, 16 Dec 2004

Lt Col Kamal Duarah (IC-36684M), Arty, 16 Dec 2004

Lt Col B S Dhaliwal (IC-38862H), Inf, 07 Jun 2006

Lt Col R P Verma (IC-38868K), Int, 07 Jun 2006

Lt Col S K Chauhan (IC-38883Y), Guards, 07 Jun 2006

Lt Col G G Mathews (IC-41060K), Signals, 24 Dec 2006

Lt Col D C Kakati (IC-35279H), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col J S Bains (IC-34625F), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col Devendra Gupta (IC-34668W), Engrs, 16 Dec 2004

Lt Col Ripu Daman (IC-37522N), Arty, 15 Nov 2005

Lt Col Videsh Kumar (IC-39350H), Arty, 13 Dec 2006

AJAY GOEL

Dy Dir

MS-8A

**KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHAstra SENA
CHIKITSA SEWA/DG-3D**

No. 421, dated 27th Jul 2007.—Consequent to Cadre Restructuring of Family Welfare Doctors and issuance of

Promotion Order vide letter No. 35273/ACP(CMO)/DGAFMS/DG-3D dated 05 Jul 2007, the following Family Welfare Doctors have been promoted to the grade of Senior Medical Officer in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the date as shown against their name:—

Name. Promoted as and Date of Promotion

Dr (Mrs) Rita Pramanik, CMO, 31 May 2007

Dr (Mrs) K Vijayalakshmi, CMO, 31 May 2007

Dr (Mrs) Smriti Saxena, CMO, 31 May 2007

Dr (Mrs) Lal Dai Kim, CMO, 31 May 2007

A K VERMA
Col
Dir AFMS (H)

(AIR BRANCH)

No. 422, dated 30th Jul 2007.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

To be Substantive Air Cmde

Rank, Name and Number BR Date

Air Cmde (Actg) D Mukundan (13508), ADM, 20 Nov 2006

Air Cmde (Actg) D S Bisht (13088), ADM, 01 Feb 2007

To be Substantive Gp Capt

Gp Capt (Actg) R K Mathur (15586), ADM, 23 Feb 2007/
20 Nov 2006(NS)

(His Name will appear above Gp Capt M K Malik (15743),
ADM in the Combined Gradation List)

ACCTS BRANCH

To be Substantive Gp Capt

Rank, Name and Number BR Date

Gp Capt (Actg) G Mathew (14987), ACCTS, 01 Apr 2006

(His Name will appear below Gp Capt S C Gahlaut (14542),
ACCTS in the Combined Gradations List)

FLYING BRANCH

To be Substantive Gp Capt

Rank, Name, Number, BR and Date

Gp Capt (Actg) V R Chaudhari (16978), F(P), 01 Mar 2006

His name will appear between Gp Capts Amit Dev (16972),
F(P) and A K Dwivedi (16979), F(P) in the Combined Gradation
List)

Gp Capt (Actg) V Shankar (16386), F(P), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) S Bose (Retd. 31 Dec 2006) (16409), F(P),
01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) O P Tewari (16678), F(N), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) M S Suresh (16603), F(P), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) I S Yadav (16620), F(P), 03 Jul 2006/01
Mar 2006 (NS)

Gp Capt (Actg) S Kumar (16626), F(P), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) S C N Sharma (16629), F(P), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) S D Joshi (Retd 30 Jun 2006) (16682),
F(N), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) M J K Thampi (16632), F(P), 01 Mar 2006

Gp Capt (Actg) R Chauhan (16228), F(P), 27 Mar 2006

Gp Capt (Actg) A F D' Cruz (16779), F(P), 01 Apr 2006

Gp Capt (Actg) S Srivastava (16786), F(P), 01 Apr 2006

Gp Capt (Actg) A K Agarwal (16793), F(P), 15 Apr 2006

Gp Capt (Actg) A Guru (16794), F(P), 01 May 2006

Gp Capt (Actg) S V Tonda (16796), F(P), 01 May 2006

Gp Capt (Actg) A K Prabhakaran (16808), F(P), 16 May
2006

Gp Capt (Actg) M Dhanraj (16210), F(P), 15 Jul 2006/31
May 2006(NS)

Gp Capt (Actg) C P Yadav (16828), F(P), 10 Jul 2006

Gp Capt (Actg) J Singh (16969), F(P), 01 Sep 2006

Gp Capt (Actg) A Golani (16986), F(P), 01 Sep 2006

Gp Capt (Actg) M Chandramouli (16997), F(P), 01 Sep
2006

Gp Capt (Actg) S Bandopadhyay (17024), F(N), 01 Oct
2006

Gp Capt (Actg) P Sharma (17009), F(P), 01 Nov 2006

Gp Capt (Actg) S C Chafekar (17013), F(P), 02 Feb 2007/
20 Nov 2006(NS)

Gp Capt (Actg) N Harish (17135), F(P), 01 Feb 2007

LGS BRANCH

To be Substantive Gp Capt

Particulars of the Officer and Date

Gp Capt (Actg) R P George (15751), LGS, 01 Oct 2006

K V SHANKAR
Jt Dir. of Personnel (Officers)-2(B)

(ARMY BRANCH)

No. 423, dated 30th July 2007—The President is pleased to permit the undermentioned officers to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 04.07.2005 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Capt Desai Ajay Premanand (DR-10580N), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 31 May 2002.

Capt Peter Devadoss (DR-10581W), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 17 Jun 2002.

Capt Shah Rakesh Jaykrishna (DR-10582Y), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 13 Aug 2002.

Capt Gaurav Vohra (DR-10583F), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 09 Mar 2002.

Capt Vishal Gupta (DR-10584K), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 12 Mar 2002.

Capt Raj Kumar K (DR-10585M), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 19 Dec 2002.

Capt Arun Kumar KV (DR-10586P), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 06 Feb 2003.

Capt Saugat Ray (DR-10587X), 04 July 2005 with seniority for pay, promotion & pension from 08 Mar 2003.

D.K. TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

(ARMY BRANCH)

No. 424, dated 27th July 2007—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Col (Sel) C Ramachandran, SM (IC-39910), Inf, 31 Jan 2006(AN)

Col Arvind Govil (IC-34185), Inf, 27 Dec 2005(AN)

Col (Sel) Phatak Sanjay Raghunath, YSM (IC-35974), Inf, 27 Jan 2006(AN)

Col Khard Karan Singh (IC-27035), Inf, 31 Jul 1999(AN)

Col Chandrahas Sadashiv Prabhu (IC-39207), Inf, 12 Dec 2005(AN)

Lt Col Kumar Kant (IC-40232), Inf, 09 Nov 2005(AN)

Col (TS) Pritpal Singh Ranhotra (IC-35615), Inf, 17 Oct 2005(AN)

Col Mahajan Ashok (IC-31273), Engrs, 31 May 2004(AN)

Col Sanjiv Puri (IC-35411), Engrs, 05 Oct 2005(AN)

Lt Col. (Sel) George Mathew (IC-36979), Engrs, 24 Apr 2006(AN)

Col Charanjit Pal, VSM (IC-31573), Engrs, 31 May 2006 (AN)

Col (TS) Ashok Kumar Malik (IC-38200), Engrs, 30 Apr 2006(AN)

Col Sanjiv Kumar Argal, VSM (IC-38203), Engrs, 11 Jul 2006(AN)

Col Pradeep Kumar (IC-31256), Engrs, 31 Jul 2005(AN)

Col Khosla Kuldeep Kumar (IC-34307), Engrs, 30 Jun 2005(AN)

Col PC Abraham (IC-30746), Engrs, 31 Jul 2006(AN)

Lt Col. BN Devaiah (IC-44890), Engrs, 05 Oct 2006(AN)

Col Sunil Kapila (IC-39478), Sigs, 31 Aug 2006(AN)

Lt Col Pawan Bakshi (IC-42512), Sigs, 10 Jul 2006(AN)

Col Nutan Prabhat (IC-39550), Sigs, 30 Sep 2006(AN)

Col (TS) Ram Kumar (IC-31958), Sigs, 21 Aug 2006(AN)

Col (TS) Jagdev Singh (IC-31227), Sigs, 31 Oct 2005(AN)

Col Abhay Prasad (IC-39171), EME, 31 Oct 2005(AN)

Lt Col PVV Vidhyasagar (IC-45395), EME, 30 Sep 2005 (AN)

Col (TS) Mahander Singh (IC-30968), EME, 31 Dec 2005(AN)

S K CHAKRABORTY
Joint Director
MS/PR

(AIR BRANCH)

No. 425, dated 30th July 2007—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Fg Offr SM Bharti (28033) and Fg Offr SS Purushothaman (28225) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of suspension from flying training i.e., 02 Dec 2006 vide Air HQ/21901/28001/PO-3(E) dated 22 May 2007.

Fg Offr V Dwivedi (28001), F(P) to Adm wef 02 Dec 2006.

P SINGH
Wg Cdr
JDPO-3(E)

(ARMY BRANCH)
(REGULAR ARMY)
PERMANENT COMMISSION
(To be Lt wef 10 Dec 2005)

CORRIGENDUM

No. 426, dated 27 July 2007—In the Gazette of India, Part I Section IV, Ministry of Defence Notification No. 52 Published on 30 Dec 2006 under the heading 'Permanent Commission' Regular Army is hereby amended to add the following remarks against IC-67592F Lt Shitanshu Jain, ASC.

"Under the terms and condition of AI 53/74 as amended vide AI 2/83, IC-67592F Lt. Shitanshu Jain is granted Permanent Commission wef 14 March 2006 i.e. the date of reporting back for duty at IMA, Dehradun after being declared medically fit in category S1 H1 A1 P1 E1 and his seniority will reckon from 10 Dec 2005 i.e. from the date of passing out of his course (117 Regular Course)"

CHANDER SHEIKHAR
Lt Col
AMS-8B

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CORRIGENDUM

Lt. Cols to be Substantive Col (by Time Scale)

No. 427, dated 30 July 2007—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 28 dated 09-15 Jul 2005 (Part-I Section-IV) (Ser No. 351) under the heading "Regular Army Permanent Commission" and Sub-heading "Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)", the following amendment is made:—

For	: IC-27223	Gulzar Ray
Read	: IC-27223	Gulzar Rai

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 35 dated 02-08 Sep 2006 (Part-I Section-IV) (Ser No.435) under the heading "Regular Army Permanent Commission" and Sub-heading "Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)", the following amendment is made:—

For	: IC-36265	Ajit Saxena, Arty
Read	: IC-35265	Ajit Saxena, Arty

AJAY GOEL
Dy Dir
MS 8A